


प्रकार-1

पाई-चार्ट आधारित

निर्देश- (प्रश्न 1-4): विभिन्न देशों (A, B, C, D, E, F) से आए छात्रों ने एक विशेष सेमिनार में भाग लिया। पाई चार्ट यह दर्शाता है कि छह प्रतिभागी देशों में से प्रत्येक में कितने छात्र आए हैं। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें।



S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 19 अगस्त, 2017 (III-पाती)

1. छात्रों का सबसे बड़ा दल किस देश से था?
 - (a) A
 - (b) C
 - (c) B
 - (d) D

उत्तर-(c)

व्याख्या— पाई चार्ट से स्पष्ट है कि छात्रों का सबसे बड़ा दल अर्थात् 30 छात्रों का दल, देश B से आया है।

2. देश A को दर्शाने वाले क्षेत्र का कोणीय माप (डिग्री में) क्या है?
 - (a) 100
 - (b) 25
 - (c) 50
 - (d) 120

उत्तर-(a)

व्याख्या— कुल छात्रों की संख्या = $(25 + 30 + 15 + 5 + 10 + 5) = 90$
 $\therefore 90 \text{ छात्र} = 360^\circ$
 $\therefore 25 \text{ छात्र} = \frac{360 \times 25}{90} \Rightarrow 100^\circ$

अतः देश A को दर्शाने वाले क्षेत्र का कोणीय माप 100° है।

3. सेमिनार में देश B के छात्र, देश E के छात्रों की तुलना में कितने अधिक (%) में?
 - (a) 40
 - (b) 200
 - (c) 20
 - (d) 18

उत्तर-(b)

व्याख्या— सेमिनार में देश B के छात्र, देश E के छात्रों की तुलना में प्रतिशत अधिकता = $\frac{30 - 10}{10} \times 100\% \Rightarrow 200\%$

4. यदि सेमिनार के लिए परिवहन पर कुल खर्च 9 लाख रु. हुआ हो और छात्रों की मेजबानी पर 15000 प्रति छात्र की लागत आई हो तो सभी छात्रों की मेजबानी पर हुई लागत और परिवहन पर किए गए व्यय का अनुपात क्या होगा?
 - (a) 2 : 5
 - (b) 3 : 2
 - (c) 1 : 1
 - (d) 1 : 2


उत्तर-(b)

व्याख्या— छात्रों की मेजबानी पर आपी लागत = 15000×90 रु.

परिवहन पर किया गया व्यय = 90000 रु.

$$\begin{aligned} \text{अतः अभीष्ट अनुपात} &= \frac{15000 \times 90}{900000} \\ &= 3 : 2 \end{aligned}$$

निर्देश : (प्रश्न 5-8): यह पाई चार्ट कंपनी के विभिन्न खर्चों प्रतिशत विभाजन को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।



S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 20 अगस्त, 2017 (III-पाती)

S.S.C. संयुक्त हायर सेकेन्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014, 2015

S.S.C.F.C.I. (Tier-II) परीक्षा, 2013

S.S.C.C.C.P.O. परीक्षा, 2012

S.S.C. मल्टी टॉसिंग परीक्षा, 2014

S.S.C. डाटा एंट्री आपरेटर परीक्षा, 2009

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 6 सितंबर, 2016 (I-पाती)

5. कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा खर्च क्या है?
 - (a) कच्चा माल
 - (b) वेतन
 - (c) परिवहन
 - (d) बिजली

उत्तर-(d)

व्याख्या— कंपनी के खर्च का क्रम


कच्चा माल > बिजली > परिवहन/वेतन > ब्याज > किराया
(30%) (25%) (15%) (10%) (5%)

अतः कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा खर्च बिजली का है।

6. कच्चे माल और परिवहन पर किए जाने वाले कंपनी के व्यय का उसके वेतन से अनुपात है—
 - (a) 2 : 1
 - (b) 1 : 1

आस्ट्रेलिया के विरुद्ध बनाए गए रन = $25 \times \frac{32}{100} = 8$ (पूर्णांक है)

निर्देश : (प्रश्न 13-16): नीचे दिए गए वृत्त चित्र 1 में 40000000 उम्मीदवारों के पृथक्करण को दर्शाया गया है, जिन्होंने एक परीक्षा का पर्याप्त भरा है। वृत्त चित्र 2 में 35000000 उम्मीदवारों के पृथक्करण को दर्शाया गया है, जो परीक्षा में उपस्थित हुए। दोनों वृत्त चित्रों में पृथक्करण उम्मीदवारों की उच्चतम शिक्षा के आधार पर किया गया है।



S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 12 अगस्त, 2017 (I-पारी)

उत्तर—(b)

व्याख्या— xyz विश्वविद्यालय से M.B.B.S के छात्रों द्वारा पर्चा भरने वालों की संख्या

$$= 40000000 \times \frac{17}{100} \times \frac{18}{100}$$

$$= 1224000$$

उत्तर—(c)

$$\text{व्याख्या} - \text{पर्वा भरने वाले बी.टेक. छात्र} = \frac{40000000 \times 18}{100} \\ = 7200000$$

$$\text{परीक्षा में उपस्थित होने वाले M.B.A छात्र} = \frac{35000000 \times 9}{100} \\ = 3150000$$

$$\text{कैक्षा में उपस्थित होने वाले M.B.A छात्र} = \frac{35000000 \times}{100} \\ = 3150000$$

$$\text{अभीष्ट अंतर} = 7200000 - 3150000 = 4050000$$

उत्तर—(a)

S.S.C.

$$\begin{aligned}
 \text{व्याख्या} - & \text{ पर्वा भरने वाले अन्यों में बी.आर्क. छात्रों की संख्या} \\
 & = 40000000 \times \frac{16}{100} \times \frac{50}{100} \\
 & = 640000 \times 5 \\
 & = 3200000
 \end{aligned}$$

परीक्षा में उपस्थित होने वाले अन्य में बी.आर्क. छात्रों की संख्या

$$= 35000000 \times \frac{14}{100} \times \frac{45}{100}$$

अतः परीक्षा न देने वाले बी. आर्क. छात्रों की संख्या

$$=3200000 - 2205000$$

16. कौन उच्चतम योग्यता में सबसे अधिक अनुपस्थित रहा है?

- (a) बी.ए. (b) अन्य
 (c) बी.काम. (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर—(d)


व्याख्या— परीक्षा का पर्चा भरने वाले छात्र = 40000000

उपस्थित छात्रों की कुल संख्या = 35 00 00 00


	पर्वा भरने वाले छात्र	उपस्थित छात्र	अनुपस्थित छात्र
बी. टेक	$4,0000000 \times \frac{18}{100}$ $= 7200000$	$35000000 \times \frac{19}{100}$ $= 6650000$	7200000 $- 6650000$ <u>550000</u>
बी. क्रम	$4,0000000 \times \frac{21}{100}$ $= 8400000$	$35000000 \times \frac{22}{100}$ $= 7700000$	8400000 $- 7700000$ <u>700000</u>
एम. बी. बी.एस.	$4,0000000 \times \frac{17}{100}$ $= 6800000$	$35000000 \times \frac{14}{100}$ $= 4900000$	6800000 $- 4900000$ <u>1900000</u>
बी. ए.	$4,0000000 \times \frac{20}{100}$ $= 8000000$	$35000000 \times \frac{22}{100}$ $= 7700000$	8000000 $- 7700000$ <u>0300000</u>
एम. बी. ए.	$4,0000000 \times \frac{8}{100}$ $= 3200000$	$35000000 \times \frac{9}{100}$ $= 3150000$	3200000 $- 3150000$ <u>050000</u>
अन्य	$4,0000000 \times \frac{16}{100}$ $= 6400000$	$35000000 \times \frac{14}{100}$ $= 4900000$	6400000 $- 4900000$ <u>1500000</u>

स्पष्ट है कि एम.बी.बी.एस. में सबसे अधिक अनुपस्थित हैं। अतः विकल्प (d) सही होगा।

निर्देशः (प्रश्न 17-21): दिए गए वृत्त चित्र में एक पुस्तक बनाने पर किए गए व्यय (प्रतिशत में) को दर्शाया गया है।



निर्देश- एक नगर के पांच क्षेत्रों की वर्ष 2010 की जनसंख्याएं निम्न वृत्तारेख में प्रदर्शित हैं। उसके नीचे की सारणी में पुरुष तथा स्त्रियों की संख्याओं के अनुपात दिए गए हैं। उन सभी पांच क्षेत्रों की कुल संख्या 72 लाख है।



पुरुष (पु.) तथा स्त्रियों (स्त्री) की संख्याओं के अनुपात

क्षेत्रफल	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	S ₅
पु. : स्त्री	3 : 2	4 : 1	7 : 3	2 : 3	13 : 7

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2012

41. किस क्षेत्र की जनसंख्या 12 लाख है?

- (a) S₁ (b) S₃ (c) S₅ (d) S₂

उत्तर-(c)

व्याख्या—प्रश्नानुसार

$$\frac{\theta}{360} = \frac{12 \text{ लाख}}{72 \text{ लाख}}$$


$$\frac{\theta}{360} = \frac{1}{6}$$

$$\theta = \frac{360}{6} \Rightarrow 60^\circ$$

अतः विचानुसार स्पष्ट है कि 60° वाले क्षेत्र अर्थात् S₅ क्षेत्र की जनसंख्या 12 लाख है।

निर्देश- (प्रश्न 42-45) : किसी विशेष माह में एक कंपनी का कुल व्यय रु. 60000 है। व्यय की I से IV की विभिन्न मर्दों को निम्नलिखित पाई-चार्ट में दर्शाया गया है। ये मर्द हैं-

- | | |
|--------------|--------------|
| I. कच्चा माल | II. परिवहन |
| III. बिजली | IV. उपरिव्यय |



S.S.C. संयुक्त हायर सेकंडरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011, 2015

42. बिजली पर व्यय का कितने प्रतिशत है?

- (a) 25% (b) 30%
(c) 20% (d) 23%

उत्तर-(c)

व्याख्या— बिजली पर व्यय = 72°

$$\therefore \text{बिजली पर व्यय का प्रतिशत} = \frac{72^\circ}{360^\circ} \times 100\% \Rightarrow 20\%$$

43. उपरिव्यय की धनराशि क्या है?

- (a) रु. 15,000 (b) रु. 18,000
(c) रु. 10,000 (d) रु. 12,000

उत्तर-(b)

व्याख्या— उपरिव्यय की कुल धनराशि = $60000 \times \frac{108^\circ}{360^\circ}$
= 18,000 रुपये

44. कच्चे माल पर व्यय कुल व्यय का कितने प्रतिशत है?

- (a) 30% (b) 60%
(c) 23% (d) 25%

उत्तर-(d)

व्याख्या— कच्चे माल पर व्यय = 90°

$$\therefore \text{कुल व्यय का प्रतिशत} = \frac{90^\circ}{360^\circ} \times 100 \Rightarrow 25\%$$


45. परिवहन पर कुल व्यय है-

- (a) रु. 15,000 (b) रु. 20,000
(c) रु. 10,000 (d) रु. 12,000

उत्तर-(a)

व्याख्या— परिवहन पर कुल व्यय = $60000 \times \frac{90}{360} \Rightarrow 15,000$ रुपये

46. एक कंपनी की विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत निर्माण लागत का व्योरा दर्शाया गया है। यदि कुल निर्माण लागत रु. 15,00,000 है, तो बालू पर कितना खर्च किया गया?



- (a) रु. 2,25,000 (b) रु. 5,40,000
(c) रु. 2,50,000 (d) रु. 3,75,000

S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2012


S.S.C. मल्टी टॉर्सिंग परीक्षा, 2014

S.S.C. संयुक्त हायर सेकंडरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

उत्तर-(a)

व्याख्या—बालू पर खर्च राशि = $360 - (54 + 54 + 36 + 90 + 72)$
 $= 360 - 306 \Rightarrow 54$
 $\therefore 15,00000$ निर्माण लागत में बालू पर खर्च राशि
 $= 1500000 \times \frac{54}{360} \Rightarrow 225000$ रु.

47. निम्नलिखित पाई-चार्ट में एक परिवार का भोजन, वस्त्र, किराया, विविध खर्चों पर हुए मासिक व्यय और बचत को दर्शाया गया है। बचत का मध्य कोण क्या है?




S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

व्याख्या— बचत का कोण = $360 - (108 + 90 + 36 + 72)$
 $= 360 - 306 = 54^\circ$

निर्देश- निम्न आकृति एक वृत्तारेख है। इसमें एक उत्पाद के निर्माण में होने वाले मददार खर्च दर्शाए गए हैं। आरेख का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए।



48. कुल निर्माण लागत रु. 96,000 है। तदनुसार, श्रम की लागत कितनी है?

- | | |
|----------------|----------------|
| (a) रु. 30,720 | (b) रु. 38,400 |
| (c) रु. 11,520 | (d) रु. 15,000 |


S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

S.S.C. CPO परीक्षा, 2008

उत्तर—(a)

व्याख्या— श्रम की लागत = $96000 \times \frac{115.2^\circ}{360}$
 $= \frac{9600 \times 115.2}{36} \Rightarrow 30,720$ रु.

निर्देश- एक भारतीय राज्य के वार्षिक कृषि उत्पादन (टनों में) को एक वृत्तारेख में प्रस्तुत किया गया है। उसमें कुल उत्पादन 9000 टन है। इस वृत्तारेख का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए।



49. गेहूं का वार्षिक उत्पादन कितना है?

- | | |
|-------------|-------------|
| (a) 2750 टन | (b) 3000 टन |
| (c) 3540 टन | (d) 3500 टन |


S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-II) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

व्याख्या— वृत्तारेख में गेहूं द्वारा अंतरित कोण का भाग = $\frac{110}{360}$

$\therefore 9000$ टन में गेहूं का भाग = $9000 \times \frac{110}{360} \Rightarrow 2750$ टन

निर्देश- निम्नलिखित (प्रश्न 50-53) पाई-चार्ट में 2009 में सात गांवों की आबादी का अनुपात दर्शाया गया है। पाई-चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए।



Village	% of population Below Povertyline
X	38
Y	52
Z	42
R	51
S	49
T	46
V	58

S.S.C. ऑन्लाइन स्नातक स्तरीय (T-1) 7 सितंबर, 2016 (I & II-परीक्षा)

S.S.C.F.C.I परीक्षा, 2012

50. यदि गांव 'X' की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी 12160 है, तो गांव 'S' की आबादी कितनी होगी?

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) 18500 | (b) 20500 |
| (c) 22000 | (d) 20000 |

उत्तर—(c)

व्याख्या—माना कि 'X' की कुल आबादी x है।

प्रश्नानुसार X गांव गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का प्रतिशत
 $= 38\%$

तथा गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की संख्या = 12160

अर्थात् x का $38\% = 12160$

या $x \times \frac{38}{100} = 12160$

या $x = \frac{12160 \times 100}{38} \Rightarrow 32000$

यदि कुल गांवों की आबादी y हो, तो

$$\begin{aligned}
 &= \frac{45}{100} \times 35000 - \frac{35}{100} \times 35000 \\
 &= \frac{10}{100} \times 35000 \Rightarrow 3500
 \end{aligned}$$

68. यदि दो श्रेणियों के लोगों के बीच अंतर आरेख में 36° दर्शाया गया है, तो बताइए वे श्रेणियां कौन-सी हैं?
- (a) साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्रियां
 - (b) साक्षर पुरुष एवं निरक्षर पुरुष
 - (c) निरक्षर पुरुष एवं साक्षर स्त्रियां
 - (d) निरक्षर पुरुष और निरक्षर स्त्रियां

उत्तर-(a)

व्याख्या- 36° केंद्रीय कोण विकल्पों से साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्रियों का अंतर है। अर्थात्

$$\begin{aligned}
 \frac{45}{100} \times 360^\circ - \frac{35}{100} \times 360^\circ &= \frac{10 \times 36^\circ}{10} \\
 &= 36^\circ
 \end{aligned}$$


69. यदि दो श्रेणियों को एक साथ मिलाकर केंद्रीय कोण 169.2° है, तो बताइए वे श्रेणियां कौन-सी हैं?
- (a) साक्षर स्त्रियां और निरक्षर स्त्रियां
 - (b) साक्षर पुरुष एवं निरक्षर पुरुष
 - (c) निरक्षर पुरुष और निरक्षर स्त्रियां
 - (d) निरक्षर पुरुष और साक्षर स्त्रियां

उत्तर-(a)

व्याख्या-साक्षर स्त्रियों एवं निरक्षर स्त्रियों का अंतर

$$\begin{aligned}
 &= \frac{35}{100} \times 360^\circ + \frac{12}{100} \times 360^\circ \\
 &= \frac{47}{100} \times 360^\circ \Rightarrow 169.2^\circ
 \end{aligned}$$

निर्देश-निम्नलिखित (प्रश्न 70-73) पाई-चार्ट में एक दिन एक छात्र के विभिन्न विषयों के अध्ययन समय को दर्शाया गया है। पाई-चार्ट का अध्ययन करके उत्तर दीजिए।



S.S.C. ऑफलाइन स्नातक स्तरीय (T-1) 8 सितंबर, 2016 (I-पार्टी)

70. इतिहास और रसायन का अध्ययन करने में 4 घंटे 30 मिनट का समझ लगा, तो छात्र ने भौतिकी की पद्धाई कितने समय की?
- (a) 1 घंटा 30 मिनट
 - (b) 2.9 घंटे (लगभग)
 - (c) 2 घंटे
 - (d) 3 घंटे

उत्तर-(d)

व्याख्या-माना कि छात्र एक दिन में x घंटे पढ़ता है।

इतिहास एवं रसायन का समझिलित प्रतिशत समय = 30%

प्रश्नानुसार

$$\frac{30 \times x}{100} = 4 \text{ घंटा } 30 \text{ मिनट}$$

$$\text{या } \frac{3x}{10} = 270 \text{ मिनट}$$

$$x = \frac{270 \times 10}{3} \Rightarrow 900 \text{ मिनट}$$

∴ भौतिकी की पद्धाई में लगा समय = 20%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{20 \times 900}{100} \Rightarrow 180 \text{ मिनट} \\
 &= 3 \text{ घंटा}
 \end{aligned}$$

71. यदि छात्र ने रसायन की पद्धाई 3 घंटे की, तो उसने भूगोल की पद्धाई कितने समय की?

- (a) 1 घंटा
- (b) 2 घंटे
- (c) 1 घंटा 30 मिनट
- (d) 2 घंटा 30 मिनट

उत्तर-(b)

व्याख्या-माना छात्र द्वारा पद्धाई में लिया गया समय x है।

$$\text{प्रश्नानुसार } \frac{15 \times x}{100} = 3$$

$$\text{या } x = 20 \text{ घंटा}$$

$$\therefore \text{भूगोल पढ़ने में लगा समय} = 10 \times \frac{20}{100} \Rightarrow 2 \text{ घंटा}$$

72. यदि छात्र ने एक दिन में 10 घंटे पढ़ाई की, तो उसने गणित की पद्धाई कितने समय की?

- (a) 3 घंटे
- (b) $10/3$ घंटे
- (c) $1/3$ घंटे
- (d) $3/10$ घंटा

उत्तर-(a)

व्याख्या-छात्र द्वारा 1 दिन में पढ़ाई के लिए दिया गया समय
= 10 घंटे

$$\therefore \text{छात्र द्वारा गणित पढ़ने में लगा समय} = \frac{10 \times 30}{100} \Rightarrow 3 \text{ घंटा}$$

73. यदि छात्र अन्य विषय पढ़ने में 10% की बजाय 15% समय लगाता है और यह समय वह गणित पढ़ने के निर्धारित समय में से निकालता है और यदि उसने प्रतिदिन 20 घंटे पढ़ाई की हो, तो प्रतिदिन गणित पढ़ने के समय का अंतर कितना है?

- (a) 30 मिनट
- (b) 45 मिनट
- (c) 1 घंटा
- (d) 1 घंटा 30 मिनट

उत्तर-(c)

व्याख्या-छात्र द्वारा प्रतिदिन पढ़ाई के लिए निर्धारित समय = 20 घंटा

∴ गणित के लिए निर्धारित समय 30% से 25% करने पर समय

$$\text{में अंतर} = 30 \times \frac{20}{100} - \frac{25 \times 20}{100}$$

$$= \frac{5 \times 20}{100} \Rightarrow 1 \text{ घंटा}$$

(c) A और C

(d) B और C

उत्तर-(b)

व्याख्या— वर्ष 1997 में कुल कर्मचारियों की संख्या = 42980
वर्ष 1997 में ग्राफ से

$$A \text{ कर्मचारियों की संख्या} = 42980 \times \frac{20}{100} \Rightarrow 8596$$

$$B \text{ कर्मचारियों की संख्या} = 42980 \times \frac{6}{100} = 2578.8$$

$$C \text{ कर्मचारियों की संख्या} = 42980 \times \frac{10}{100} = 4298$$

$$D \text{ कर्मचारियों की संख्या} = 42980 \times \frac{15}{100} = 6447$$

$$E \text{ कर्मचारियों की संख्या} = 42980 \times \frac{27}{100}$$

$$= 4298 \times \frac{27}{10} = 116046$$

$$F \text{ कर्मचारियों की संख्या} = 42980 \times \frac{22}{100} = 9455.6$$

वर्ष 1998 में कुल कर्मचारियों की संख्या = 48640

∴ वर्ष 1998 में (ग्राफ से)

$$A \text{ कर्मचारियों की संख्या} = 48640 \times \frac{22}{100} = 10700.8$$

$$B \text{ कर्मचारियों की संख्या} = 48640 \times \frac{10}{100} = 4864$$

$$C \text{ कर्मचारियों की संख्या} = 48640 \times \frac{11}{100} = 5350.4$$

$$D \text{ कर्मचारियों की संख्या} = 48640 \times \frac{9}{100} = 4377.6$$

$$E \text{ कर्मचारियों की संख्या} = 48640 \times \frac{27}{100} = 13132.8$$

$$F \text{ कर्मचारियों की संख्या} = 48640 \times \frac{21}{100} = 10214.4$$

∴ वर्ष 1998 में A प्रकार के कर्मचारी की संख्या = 10701 लगभग

वर्ष 1997 में C और D प्रकार के कर्मचारियों की संख्या

$$= 4298 + 6447 = 10745$$

विकल्पों को हल करने से स्पष्ट है कि विकल्प (b) में कर्मचारियों की संख्या लगभग बराबर है।

79. 1997 से 1998 तक निम्नलिखित में से किस प्रकार के कर्मचारियों के मामले में परिवर्तन अधिकतम था?

- (a) D (b) B (c) A (d) C

उत्तर-(b)

व्याख्या— प्रश्नानुसार

1997 से 1998 में

$$A \text{ के कर्मचारियों में परिवर्तन} = 10700 - 8596 = 2104$$

$$B \text{ के कर्मचारियों में परिवर्तन} = 4864 - 2578 = 2286$$

$$C \text{ के कर्मचारियों में परिवर्तन} = 5350 - 4298 = 1052$$

$$D \text{ के कर्मचारियों में परिवर्तन} = 6447 - 4377 = 2070$$

अतः स्पष्ट है कि B के कर्मचारियों में परिवर्तन अधिकतम था।

80. 1997 और 1998 में B प्रकार के कर्मचारियों की संख्या में अनुमानित अंतर कितना था?

- (a) 2285 (b) 2620
(c) 2085 (d) 2325

उत्तर-(a)

व्याख्या— वर्ष 1997 से 1998 में B प्रकार के कर्मचारियों में अनुमानित अंतर = $4864 - 2578.8$
 $= 2285.2 \Rightarrow 2285$ (लगभग)

81. यदि 1998 में D प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 5000 थी, तो कंपनी में उसका अनुमानित प्रतिशत कितना रहा होगा?

- (a) 12 (b) 10
(c) 16 (d) 14

उत्तर-(b)

व्याख्या— वर्ष 1998 में D प्रकार के कर्मचारियों की संख्या = 5000
 $\therefore 48640 \text{ कर्मचारियों में D प्रकार के कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत}$
 $= \frac{5000}{48640} \times 100$
 $= 10.27\% \Rightarrow 10\% \text{ लगभग}$

82. 1998 में A प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 1997 में A प्रकार के कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी?

- (a) 95 (b) 140
(c) 115 (d) 125

उत्तर-(d)

व्याख्या— वर्ष 1998 में A प्रकार के कर्मचारियों की संख्या = 10700
वर्ष 1997 में A प्रकार के कर्मचारियों की संख्या = 8596

प्रश्नानुसार


माना 1997 में A प्रकार के कर्मचारियों का $x\% = 1998$ में A प्रकार के कर्मचारियों की संख्या

$$\therefore 8596 \times x\% = 10700$$

$$x = \frac{10700}{8596} \times 100 \Rightarrow 125\% \text{ लगभग}$$


निर्देश- (प्रश्न 83-85) : निम्नलिखित पाई-चार्ट में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत, एक राज्य की आय दर्शाइ गई है। चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें-

Custom duty



S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

निर्देश- (प्रश्न 90-92) : निम्नलिखित पाई-चार्ट में भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अपने चरण II की परियोजनाओं के लिए संग्रहीत की जाने वाली निधि के स्रोतों को दर्शाया गया है। पाई-चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर दें-



S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

90. बाजार ऋण के अनुरूप केंद्रीय कोण है-
- 192.4°
 - 52°
 - 137.8°
 - 187.2°

उत्तर-(d)

व्याख्या— कुल संग्रहीत निधि = $29952 + 11486 + 5252 + 4910 + 6000 = 57600$

$$\therefore \text{पाई-चार्ट में बाजार ऋण द्वारा अंतरित कोण} = \frac{29952}{57600} \times 360^\circ = 187.2^\circ$$

91. यदि 10% का कमीशन देकर बाह्य एजेंसी के माध्यम से महसूल वसूल किया जाना है, तो बाह्य एजेंसी को कितनी राशि की वसूली की अनुमति दी जानी चाहिए जिससे परियोजना को रु. 4,910 करोड़ की सहायता मिल सके?
- रु. 6,213 करोड़
 - रु. 5,401 करोड़
 - रु. 5,316 करोड़
 - रु. 5,827 करोड़

उत्तर-(b)

व्याख्या— माना बाह्य एजेंसी को x रुपये राशि वसूली की अनुमति दी जाती है।

$$\begin{aligned} \text{प्रश्नानुसार} \quad x &= 4910 \times \frac{(100+10)}{100} \\ &= 4910 \times \frac{110}{100} \Rightarrow 5401 \text{ करोड़ रुपये} \end{aligned}$$

92. यदि भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को बाह्य सहायता के रूप में रु. 9,695 करोड़ प्राप्त हो सके, तो उसको निधि की कमी को पूरा करने के लिए बाजार ऋण कितने प्रतिशत (लगभग) बढ़ाना चाहिए?
- 4.5%
 - 7.5%
 - 8%
 - 6%

उत्तर-(d)

व्याख्या— पूर्व में बाह्य सहायता की निधि राशि = 11486 करोड़ रु.

प्रश्नानुसार


बाह्य सहायता की निधि राशि = 9695 करोड़ रु.

$$\begin{aligned} \text{पूर्व की बाह्य सहायता राशि से कमी} &= 11486 - 9695 \\ &= 1791 \text{ करोड़ रु.} \end{aligned}$$

इस प्रकार बाजार ऋण में 1791 करोड़ रुपये की वृद्धि करनी होगी।

$$\therefore \text{अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि} = \frac{1791}{29952} \times 100 = 6\% \text{ (लगभग)}$$

निर्देश- निम्नलिखित पाई-चार्ट एक माकान की सज्जा पर अनुमानित व्यय को दर्शाता है, जिसका कुल व्यय रु. 1,20,000 है। चार्ट की परीक्षा कीजिए और प्रश्न 93 से 96 का उत्तर दीजिए।



S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013, 2014

S.S.C. संयुक्त हायर सेकंडरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

93. वास्तु शिल्पकार को कितने शुल्क का भुगतान किया गया?

- रु. 12,000
- रु. 13,200
- रु. 9,600
- रु. 15,600

उत्तर-(b)

व्याख्या— वास्तु शिल्पकार को भुगतान किया गया शुल्क

$$= 120000 \times \frac{11}{100} \Rightarrow 13200 \text{ रुपये}$$

94. फर्नीचर और पर्दों पर कितना व्यय हुआ?

- 27,600
- 1,80,000
- 38,400
- 22,800

उत्तर-(a)

व्याख्या— फर्नीचर और पर्दों पर व्यय मद

$$\begin{aligned} &= 120000 \times \frac{13}{100} + 120000 \times \frac{10}{100} \\ &= 15600 + 12000 \\ &= 27600 \text{ रुपये} \end{aligned}$$

95. उन्होंने फर्श के लिए ग्रिलों की तुलना में कितना अधिक खर्च किया?

- 1,200
- 2,400
- 9,600
- 4,800

उत्तर-(d)


125. पिछले चार वर्षों में कंपनी को कुल कितना मुनाफा (लाख रुपये में) हुआ था?

- | | |
|---------|---------|
| (a) 250 | (b) 245 |
| (c) 255 | (d) 240 |

उत्तर-(c)

पिछले चार वर्षों में कंपनी का कुल मुनाफा = वर्ष 2014, 2015, 2016 एवं 2017 का कुल मुनाफा
 $= (65 + 90 + 10 + 90)$ लाख $\Rightarrow 255$ लाख रु.

निर्देश : (प्रश्न 126-129): नीचे दिए गए रेखा चित्र में 7 देशों के चाय के प्रति एकड़ उत्पादन (मिलियन टन में) को दर्शाया गया है?



S.S.C. ऑफलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 12 अगस्त, 2017 (II-पार्टी)

126. इन 7 देशों की औसत प्रति एकड़ उत्पादन (मिलियन टन) कितनी है?

- | | |
|------------|------------|
| (a) 163.14 | (b) 184.28 |
| (c) 146.78 | (d) 198.26 |

उत्तर-(b)

व्याख्या—7 देशों का औसत प्रति एकड़ उत्पादन

$$= \frac{300 + 250 + 162 + 272 + 82 + 104 + 120}{7} \\ = \frac{1290}{7} \Rightarrow 184.28$$

127. सबसे अधिक उत्पादन वाले 3 देशों के औसत प्रति एकड़ उत्पादन तथा सबसे कम 3 देशों के औसत प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात क्रमशः क्या होगा?

- | | |
|--------------|---------------|
| (a) 148 : 65 | (b) 201 : 149 |
| (c) 89 : 69 | (d) 137 : 51 |

उत्तर-(d)

व्याख्या—सबसे अधिक उत्पादन वाले 3 देश तथा सबसे कम उत्पादन

$$\text{वाले } 3 \text{ देशों के औसत प्रति एकड़ उत्पादन का अनुमान} = \\ (300 + 250 + 272) : (120 + 104 + 82) \\ = 822 : 306 \Rightarrow 137 : 51$$

128. भारत तथा चीन का कुल प्रति एकड़ उत्पादन बाकी देशों के कुल प्रति एकड़ उत्पादन का कितना प्रतिशत है?

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) 44.34 | (b) 56.68 |
| (c) 83.24 | (d) 79.66 |

उत्तर-(d)

व्याख्या—भारत तथा चीन का कुल प्रति एकड़ उत्पादन = 300 + 272 $\Rightarrow 572$

बाकी देशों का कुल प्रति एकड़ उत्पादन = 250 + 162 + 82 + 104 + 120 $\Rightarrow 718$

$$\text{अभीष्ट प्रतिशत} = \frac{572 \times 100}{718} \Rightarrow 79.66$$

129. सभी देशों को प्रति एकड़ उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि अंतिम 2 देश अपने प्रति एकड़ उत्पादन को 20% से बढ़ाते हैं तथा बाकी सभी देश अपने प्रति एकड़ उत्पादन को 10% से बढ़ाते हैं, तो प्रति एकड़ उत्पादन का नया औसत (मिलियन टन में) क्या है?

- | | |
|------------|------------|
| (a) 205.37 | (b) 210.82 |
| (c) 201.19 | (d) 199.26 |

उत्तर-(a)

व्याख्या—थाईलैंड देश का उत्पादन = $104 \times \frac{120}{100} = 124.8$

सिंगापुर देश का उत्पादन = $120 \times \frac{110}{100} = 132$

भारत देश का उत्पादन = $300 \times \frac{110}{100} = 330$

श्रीलंका देश का उत्पादन = $250 \times \frac{110}{100} = 275$

भूटान देश का उत्पादन = $162 \times \frac{110}{100} = 178.2$

चीन देश का उत्पादन = $272 \times \frac{110}{100} = 299.2$

नेपाल देश का उत्पादन = $82 \times \frac{120}{100} = 98.40$


\therefore प्रति एकड़ उत्पादन का नया औसत

$$= \frac{124.8 + 132 + 330 + 275 + 178.2 + 299.2 + 98.40}{7}$$

$$= \frac{1437.6}{7} \Rightarrow 205.37$$

अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।

निर्देश— एक कार चालक और एक स्कूटर चालक ने 120 किमी. की यात्रा एक स्थान से आरंभ करके एक समन समझ में पूरी कर ली। दिए गए लेखाचित्र में उन यात्रियों की गति को दर्शाया गया है। लेखाचित्र का अध्ययन करके प्रश्न 134-137 तक के उत्तर दीजिए।



S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2012

134. मोटर चालक, स्कूटर चालक से किस समय मिला?

- (a) 10.30 प्रातः (b) 10.45 प्रातः
 (c) 10.15 प्रातः (d) 10.20 प्रातः

उत्तर—(a)

व्याख्या— वित्तानुसार, कार चालक एवं स्कूटर चालक 10.30 बजे 80 किमी. की दूरी पर मिले।

135. यात्रा के दौरान स्कूटर चालक की गति (किमी/घंटा) कितनी थी?

- (a) 45 (b) 48
 (c) 42 (d) 46

उत्तर—(b)

व्याख्या— यात्रा के दौरान स्कूटर चालक की गति = $\frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$

$$= \frac{120}{2\frac{1}{2}} = 48 \text{ किमी/घंटा}$$

136. स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा कितने समय (घंटों) में पूरी की?

- (a) 3 (b) 2
 (c) $2\frac{1}{2}$ (d) $3\frac{1}{2}$

उत्तर—(c)

व्याख्या— वित्तानुसार, स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा $2\frac{1}{2}$ घंटे में पूरी की।

137. मोटर चालक, स्कूटर चालक से शुरुआत से कितनी दूरी तक जाकर (किमी. में) मिला?

- (a) 75 (b) 70


(c) 90

(d) 80

उत्तर—(d)

व्याख्या— वित्तानुसार, मोटर चालक एवं स्कूटर चालक 10.30 बजे 80 किमी. की दूरी पर एक-दूसरे से मिले।

निर्देश— निम्न आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न 138 एवं 139 के उत्तर दें।



S.S.C. संयुक्त स्नातक त्रिय (Tier-I) परीक्षा, 2013

138. 2001 से 2002 में आय में प्रतिशत कमी ज्ञात करें-

- (a) 50 (b) 33
 (c) $37\frac{1}{2}$ (d) विवरण अपर्याप्त

उत्तर—(d)

व्याख्या— 2001-2002 में आय में प्रतिशत हेतु आंकड़ा अपर्याप्त है।

139. यदि आय पूरी अवधि (2000-2005) के दौरान हर वर्ष में धनात्मक वृद्धि दर्शाए, तो व्यय कितने वर्षों में धनात्मक वृद्धि दिखाता है?

- (a) 5 (b) 3 (c) 4 (d) 2

उत्तर—(b)

व्याख्या— यदि आय पूरी अवधि के दौरान हर वर्ष में धनात्मक वृद्धि दर्शाए तो आय-व्यय का चार्ट इस प्रकार होगा (माना प्रारंभिक आय अर्थात् 2000 में = 100 रु. है, तो व्यय 200 रु. होगा)।

वर्ष	आय-व्यय अनुपात	आय	व्यय
2000	1 : 2 (.50)	100	200
2001	1 : 1 (1.00)	200	200
2002	3 : 4 (.75)	300	400
2003	2 : 1 (2.00)	800	400
2004	7 : 4 (1.75)	1400	800
2005	3 : 2 (1.50)	1500	1000

यानी 3 वर्ष (2002, 2004 एवं 2005) के व्यय में धनात्मक वृद्धि दिखाई देता है।

140. नीचे के लेखाचित्र में एक खास सप्ताह में प्रत्येक दिन मापे गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान दर्शाए गए हैं। तदनुसार, वह दिन कौन-सा है, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर अधिकतम था?

- अधिकतम तापमान ○ न्यूनतम तापमान

व्याख्या— कंपनी A का उत्पादन = 1450

तथा कंपनी C की मांग = 2600


प्रश्नानुसार

माना कंपनी C की मांग का $x\%$ = कंपनी A का उत्पादन

$$2600 \times x\% = 1450$$

$$x = \frac{1450 \times 100}{2600} = 55\% \text{ लगभग}$$

145. नीचे दिए गए रेखा ग्राफ में एक स्थावर संपदा एजेंट द्वारा वर्ष के पहले छः महीनों में प्रति माह बीचे गए मकानों की संख्या दर्शाई गई है। किन दो महीनों के बीच बिक्री सबसे अधिक बढ़ी है?



(a) अप्रैल - मई

(b) मई - जून

(c) जनवरी - फरवरी


(d) मार्च - अप्रैल

S.S.C. मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 2014

उत्तर-(d)

व्याख्या— ग्राफ से स्पष्ट है कि मार्च से अप्रैल महीनों के बीच बिक्री सबसे अधिक बढ़ी।

146. ग्राफ का अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें—



प्रातः 8 बजे और दोपहर 12 बजे के बीच रोगी का तापमान एकाएक कितना बढ़ा?

(a) 0.5°C

(b) 2.5°C

(c) 2°C

(d) 1.5°C

S.S.C. मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 2014


उत्तर-(d)

व्याख्या— प्रातः 8 बजे रोगी का तापमान = 40°C

दोपहर 12 बजे रोगी का तापमान = 41.5°C

$$\therefore \text{रोगी के तापमान में अंतर} = 41.5 - 40 \Rightarrow 1.5^\circ\text{C}$$

147. दिए गए रेखिक आलेख में एक शहर के वर्ष 1999 के पहले छह महीनों की दुर्घटनाओं को दर्शाया गया है।



तदनुसार, मई से जून तक दुर्घटनाओं में कितनी प्रतिशत कमी आई है?

(a) $15\frac{3}{8}\%$

(b) $15\frac{1}{8}\%$

(c) $15\frac{5}{8}\%$

(d) $15\frac{7}{8}\%$

S.S.C. मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 2013

उत्तर-(c)

व्याख्या— मई में हुई दुर्घटना = 32

जून में हुई दुर्घटना = 27


$$\therefore \text{अभीष्ट प्रतिशत कमी} = \frac{32-27}{32} \times 100$$

$$= \frac{5}{32} \times 100 \Rightarrow 15\frac{5}{8}\%$$

148. एक कक्षा को 3 समान वर्गों में बांटा गया और उन पर गणित में 5 परीक्षण किए गए। उन वर्गों के परीक्षणों के औसत प्राप्तांकों को नीचे दर्शाया गया है। तदनुसार, परीक्षण 2 में पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक कितने हैं?

निर्देश—निम्न बारंबारता बहुभुज, जिसमें परिवार के आकार (परिवार में सदस्यों की संख्या) को संगत बारंबारता (परिवारों की संख्या) के साथ प्रदर्शित किया गया है, का अध्ययन करके, **प्रश्न 154-158** तक के उत्तर दीजिए।

154-158 तक के उत्तर दीजिए।



S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

उत्तर—(d)

व्याख्या—चित्रानुसार 10 परिवारों का आकार एक समान है। जिनकी संख्या 6 है।

उत्तर-(c)

व्याख्या—चित्रानुसार सबसे ज्यादा परिवार वाला आकार 4 है, जिसमें परिवर्णों की संख्या 20 है।

- 156.** उन परिवारों की संख्या कितनी है, जिनका आकार '4' या उससे कम है?

उत्तर—(b)

व्याख्या—चित्रानुसार आकार '4' एवं उससे कम आकार वाले क्षेत्र में परिवारों की कुल संख्या = $0 + 5 + 15 + 20 = 40$

- 157.** आकार '5' वाले परिवारों का प्रतिशत कितना है?

उत्तर—(a)

व्याख्या—आकार '5' वाले परिवार का प्रतिशत

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{आकार '5' वाले परिवार}}{\text{कुल परिवार}} \times 100 \\
 &= \frac{13}{0+5+15+20+13+10+2+0} \times 100 \\
 &= \frac{13}{65} \times 100 \\
 &= \frac{100}{5} \Rightarrow 20\%
 \end{aligned}$$

- 158.** आकार '3' तथा आकार '6' वाले परिवारों की संख्या में कितना अंतर है?


उत्तर—(c)

$$= 15 - 10 = 5$$

प्रकार-3

आयत चित्र-आधारित

निर्देश : (प्रश्न 159-162): बार ग्राफ एक निश्चित कंपनी के छह भिन्न-भिन्न विभागों (A, B, C, D, E, F) में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें।



S.S.C. अँसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 22 अगस्त, 2017(III-पार्टी)

183. वर्ष 1992 और 1993 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का कुल योग

कितना है?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (a) 15.58 करोड़ | (b) 15.85 करोड़ |
| (c) 15.22 करोड़ | (d) 15.65 करोड़ |

उत्तर-(b)

व्याख्या- 1992 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश = 5.7

1993 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश = 10.15

$$\therefore 1992 \text{ और } 1993 \text{ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश} = 5.7 + 10.15 \\ = 15.85 \text{ करोड़}$$

184. दर्शाई गई अवधि में भारत में किस वर्ष द्वितीय सर्वाधिक विदेशी

प्रत्यक्ष निवेश किया गया?

- | | |
|----------|----------|
| (a) 1993 | (b) 1994 |
| (c) 1997 | (d) 1996 |

उत्तर-(d)

व्याख्या- 1996 वर्ष है, जिसमें भारत में द्वितीय सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है?

185. कुल वर्षों का औसत निवेश और 1997 में किए गए निवेश से अनुपात क्या है?

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) 2 : 1 | (b) 1 : 2 |
| (c) 1 : 1 | (d) 3 : 1 |

उत्तर-(b)

व्याख्या- कुल वर्षों में किया गया औसत निवेश

$$= \frac{5.7 + 10.15 + 20.16 + 10.22 + 24.23 + 31.36}{6} \\ = \frac{101.82}{6} \Rightarrow 16.97$$

कुल वर्षों का औसत निवेश और 1997 में किए गए निवेश से अनुपात

$$= \frac{16.97}{31.36} = \frac{1}{1.85} \Rightarrow 1 : 2 \text{ लगभग}$$


186. वर्ष 1996 और 1997 के बीच भारत में किए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में संपूर्ण अंतर कितना है?

- | | |
|----------|----------|
| (a) 7.29 | (b) 7.13 |
| (c) 7.16 | (d) 7.22 |

उत्तर-(b)

व्याख्या- वर्ष 1997 एवं 1996 के निवेशों का अंतर = 31.36 - 24.23
= 7.13 करोड़

निर्देश- (इस 187-190): भारत ग्राफ का अध्यक्षन कीजिए और निम्नतिक्क्रिया क्रमों के उत्तर दीजिए। ग्राफ में 6 पर्वत शिखरों की ऊंचाई दर्शाई गई है।



S.S.C. अंकगणित स्नातक स्तरीय (T-1) 11 सितंबर, 2016 (III-परी)

187. ग्राफ में 6 पर्वत शिखरों की ऊंचाई दर्शाई गई है। सभी शिखरों की औसत ऊंचाई (मीटर में) ज्ञात कीजिए?

- | | |
|------------|----------|
| (a) 7601.5 | (b) 7600 |
| (c) 7599.5 | (d) 7610 |

उत्तर-(b)

व्याख्या- ग्राफ से

$$\text{ऊंचाई} = \frac{8200 + 6000 + 8600 + 7500 + 8800 + 6500}{6} \\ = \frac{45600}{6} \Rightarrow 7600 \text{ मीटर}$$

188. दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन-सा है?

- | | |
|-------|-------|
| (a) B | (b) C |
| (c) A | (d) E |

उत्तर-(b)

व्याख्या- ग्राफ से स्पष्ट है कि दूसरा सबसे ऊंचा शिखर C (8600 मीटर) है। पहला सबसे ऊंचा शिखर E (8800 मीटर) है।

189. उच्चतम शिखर और निम्नतम शिखर की ऊंचाई का अनुपात बताइए?

- | | |
|-------------|-------------|
| (a) 22 : 15 | (b) 15 : 22 |
| (c) 20 : 13 | (d) 13 : 22 |

उत्तर-(a)

व्याख्या- ग्राफ से

$$\frac{\text{उच्चतम शिखर}}{\text{निम्नतम शिखर}} = \frac{8800}{6000} \\ = \frac{22}{15} \Rightarrow 22 : 15$$

190. यदि दिए गए पर्वत शिखरों की ऊंचाई आरोही क्रम में लिखी जाती है, तो मध्य के दो शिखरों का औसत क्या है?

- | | |
|--------------|--------------|
| (a) 7950 मी. | (b) 7560 मी. |
| (c) 7650 मी. | (d) 7850 मी. |

उत्तर-(d)

195. डाटा में शामिल विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है?

- | | |
|--------|--------|
| (a) 33 | (b) 32 |
| (c) 43 | (d) 42 |

उत्तर—(a)

व्याख्या— डाटा में शामिल विद्यार्थियों की कुल संख्या
 $= 4+6+10+8+5 \Rightarrow 33$

196.वें इंटरवल में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है।

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) 10–20 | (b) 20–30 |
| (c) 30–40 | (d) 40–50 |

उत्तर—(b)

व्याख्या— 20–30वें इंटरवल में अंक प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम (10) है।

197. ----- इंटरवल में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या है।

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) 40–50 | (b) 20–30 |
| (c) 10–20 | (d) 0–10 |

उत्तर—(d)

व्याख्या— 0–10 इंटरवल में अंक प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम (4) है।


198. प्रथम और अंतिम इंटरवल में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात बताइए।

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) 5 : 4 | (b) 6 : 5 |
| (c) 4 : 5 | (d) 3 : 4 |

उत्तर—(c)

व्याख्या— प्रथम और अंतिम इंटरवल में अंक प्राप्त विद्यार्थियों का अनुपात = 4 : 5

निर्देश— निम्न आयत वित्र 60 छात्रों की कक्षा की लंबाइयों का दर्शाता है। इसका अध्ययन करें और प्रश्न 199 से 201 के उत्तर दें।



S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

199. 150 सेमी. से अधिक लंबाई वाले छात्रों की संख्या—

- | |
|--------|
| (a) 38 |
| (b) 13 |
| (c) 25 |
| (d) 8 |

उत्तर—(a)

व्याख्या— 150 सेमी. से अधिक लंबाई वाले छात्रों की संख्या
 $= 25 + 7 + 4 + 2$
 $= 38$

200. 130 से 150 सेमी. के बीच लंबाई वाले छात्रों की संख्या—

- | | |
|--------|--------|
| (a) 14 | (b) 22 |
| (c) 8 | (d) 6 |

उत्तर—(a)

व्याख्या— 130 से 150 सेमी. के बीच लंबाई वाले छात्रों की संख्या
 $= 6 + 8$
 $= 14$

201. छात्रों की अधिकतम संख्या किस समूह में है?


- | |
|-------------|
| (a) 140–150 |
| (b) 160–170 |
| (c) 130–140 |
| (d) 150–160 |

उत्तर—(d)

व्याख्या— छात्रों की अधिकतम संख्या 150–160 समूह की है।


निर्देश— दंड ग्राफ किसी छात्र द्वारा एक परीक्षा में प्रत्येक विषय में 100 अंकों से प्राप्त अंक दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न

202 तथा 203 के उत्तर दें।



S.S.C. संयुक्त हायर सेकंडरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

निर्देश- (प्रश्न 208-211) : यहां दिया गया सार ग्राफ एक कंपनी की आय के दर्शाता है। बर-ग्राफ का अङ्गयान दीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए।



S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-1) 9 चितंबर, 2016 (III-L-पार्टी)

208. किस अंतराल में आय में निरंतर बढ़ोत्तरी हुई है?

- (a) मार्च से मई तक (b) फरवरी से अप्रैल तक
 (c) फरवरी से मई तक (d) आंकड़े अपर्याप्त हैं।

उत्तर-(a)

व्याख्या- ग्राफ का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि मार्च से मई के बीच कंपनी की आय में निरंतर वृद्धि हुई है।

209. किस माह में आय का पूर्व माह की आय से अनुपात अधिकतम है?

- (a) फरवरी (b) मार्च (c) अप्रैल (d) मई

उत्तर-(b)

व्याख्या- ग्राफ से स्पष्ट है कि मार्च में कंपनी की आय में फरवरी की अपेक्षा सर्वाधिक वृद्धि हुई है।

210. मई की आय फरवरी की आय की कितनी गुना है?

- (a) 3.25 (b) 4 (c) 3.5 (d) 5

उत्तर-(a)

व्याख्या- फरवरी माह में कंपनी की आय = 4 लाख
 मई माह में कंपनी की आय = 13 लाख
 अर्थात् मई की आय फरवरी की आय का गुना = $\frac{13}{4}$
 $= 3.25$ गुनी है।

211. कंपनी की औसत मासिक आय (लाख रुपयों में) क्या है?


- (a) 7.6 (b) 6
 (c) 8.8 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर-(c)

व्याख्या- कंपनी की औसत मासिक आय = $\frac{7 + 4 + 9 + 11 + 13}{5} = \frac{44}{5} \Rightarrow 8.8$

निर्देश- (प्रश्न 212-215) : नीचे एक बहुत बर-चार्ट दिया गया है। जिसमें किसी कॉर्पेज में चार संकायों में वर्ष 1990-1991 से 1992-1993 तक विद्यार्थियों की संख्या में होने वाले परिवर्तन दर्शाएँ गए हैं। (माझे 1 सेमी. = 100) बहुविध बर चार्ट का अध्ययन करें एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

■ कला ■ विज्ञान ■ वाणिज्य ■ विधि



S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-1) 4 चितंबर, 2016 (III-L-पार्टी)

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

212. किस संकाय में विद्यार्थियों की संख्या में नियमित रूप से कमी हो रही है?

- (a) कला (b) विज्ञान
 (c) वाणिज्य (d) विधि

उत्तर-(a)

व्याख्या- ग्राफ से स्पष्ट है कि कला संकाय के विद्यार्थियों की संख्या में नियमित रूप से कमी आई है।

213. वर्ष 1990-91 की तुलना में वर्ष 1992-1993 में विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

- (a) 50% (b) 150%
 (c) 66 2/3% (d) 75%

उत्तर-(a)

व्याख्या- वर्ष 1990-91 की तुलना में वर्ष 1992-93 में विज्ञान

$$\text{विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि} = \frac{600 - 400}{400} \times 100$$

$$= \frac{200}{4} \Rightarrow 50\%$$

214. वर्ष 1990-1991 से 1992-1993 तक वाणिज्य के विद्यार्थियों का विधि के विद्यार्थियों से क्या अनुपात है?

- (a) 6 : 7 (b) 7 : 6
 (c) 14 : 1 (d) 2 : 8

उत्तर-(b)

व्याख्या— ग्राफ से वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक वाणिज्य के विद्यार्थियों की संख्या = $200 + 250 + 250 \Rightarrow 700$
 1990-91 से 1992-93 तक विधि विद्यार्थियों की संख्या
 $= 150 + 200 + 250 \Rightarrow 600$
 \therefore अभीष्ट अनुपात = $\frac{700}{600} \Rightarrow 7: 6$


- 215.** किस वर्ष में कला संकाय के विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम रही?

 - (a) 1990-91
 - (b) 1991-92
 - (c) 1992-93
 - (d) 1993-94

उत्तर-(c)

व्याख्या-ग्राफ से स्पष्ट है कि वर्ष 1992-93 में कला संकाय में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है।

निर्देश- (प्रश्न 216-219): इस बार ग्राफ में किसी फैक्टरी में एक सप्ताह के दौरान टेबल पंखों के उत्पादन को दर्शाया गया है। बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।



S.S.C. ऑफलाइन स्नातक स्तरीय (T-1) 29 अगस्त, 2016 (I-पार्टी)

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

- 216.** अधिकतम उत्पादन न्यूनतम उत्पादन से कितना अधिक है

(a)

$$\begin{aligned} \text{व्याख्या} - \text{ग्राफ से } & \text{पंखे का अधिकतम उत्पादन} = 540 \\ \text{पंखे का न्यूनतम उत्पादन} &= 120 \\ \therefore \text{अधिकतम एवं न्यूनतम उत्पादन का अंतर} &= 540 - 120 \\ &= 420 \end{aligned}$$

217. उस सप्ताह में टेबल पंखों का औसत उत्पादन कितना है?

(a) 370 (b) 280 (c) 300 (d) 250

उत्तर-(c)

व्याख्या-

$$\text{औसत उत्पादन} = \frac{260 + 540 + 360 + 120 + 200 + 320}{6}$$

$$= \frac{1800}{6} \Rightarrow 300$$

- 218.** फैक्टरी में सोमवार से बुधवार तक टेबल पंखों के कुल उत्पादन और गुरुवार से शनिवार तक के कुल उत्पादन का अनुपात कितना है?

उत्तर-(c)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{260 + 540 + 360}{120 + 200 + 320} \\
 &= \frac{1160}{640} = \frac{29}{16} \Rightarrow 29: 16
 \end{aligned}$$

- 219.** सोमवार और मंगलवार को टेब्ल पंखों का औसत उत्पादन उस सप्ताह के टेब्ल पंखों के औसत उत्पादन से कितना अधिक होता है?


उत्तर-(b)

व्याख्या—सोमवार और मंगलवार का औसत उत्पादन – सप्ताह के 6 दिनों का औसत उत्पादन

$$= \frac{260 + 540}{2} - \frac{260 + 540 + 360 + 120 + 200 + 320}{6}$$

$$= \frac{800}{2} - \frac{1800}{6} = 400 - 300 \Rightarrow 100 \text{ ਪੰਥੇ}$$

निर्देश— (प्रश्न 220-223): छात्रों के गणित में प्राप्त अंकों (50 में से) को दर्शाने वाले निम्नलिखित आयत वित्र का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।



S.S.C. अँनलाइन स्नातक स्तरीय (T-1) 7 सितंबर, 2016 (II-पाठी)

226. वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2003 में भर्ती हुए छात्रों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है?

- (a) 133.3
- (b) 33.3
- (c) 40.3
- (d) 66.7

उत्तर-(b)

व्याख्या—वर्ष 2003 में 2001 की अपेक्षा भर्ती हुए छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि = $\frac{12 - 9}{9} \times 100 \Rightarrow 33.3\%$

227. वर्ष 2000 से 2003 में भर्ती हुए छात्रों की कुल संख्या और उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए?

- (a) 17/23
- (b) 17/6
- (c) 11/23
- (d) 5/7

उत्तर-(d)

व्याख्या—वर्ष 2000 से 2003 तक उत्तीर्ण छात्र = $4 + 6 + 6 + 9 = 25$
 वर्ष 2000 से 2003 तक भर्ती हुए छात्र = $6 + 9 + 8 + 12 = 35$
 \therefore अभीष्ट अनुपात = $\frac{25}{35} \Rightarrow 5:7$

228. कौनसे दो वर्ष में छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 60 से 70 के बीच था?

- (a) 2000 और 2001
- (b) 2003 और 2004
- (c) 2001 और 2002
- (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर-(a)

व्याख्या—ग्राफ से स्पष्ट है कि वर्ष 2000 एवं 2001 में छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 60 से 70 के बीच है।

229. वर्ष 2002 में भर्ती हुए छात्रों की संख्या और वर्ष 2003 तथा 2004 में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या के औसत का अनुपात बताइए?

- (a) 7 : 8
- (b) 8 : 9
- (c) 9 : 8
- (d) 8 : 7


उत्तर-(b)

व्याख्या—ग्राफ से—

$$\frac{\text{वर्ष } 2002 \text{ का उत्तीर्ण}}{\text{वर्ष } 2003 \text{ तथा } 2004 \text{ का उत्तीर्ण}} = \frac{8}{(9+9)/2}$$

$$= \frac{8}{18/2} = 8:9$$

निर्देश—(प्रश्न 230-233): नीचे दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए जो किसी कंपनी द्वारा विभिन्न मर्दों पर किए गए कुल खर्च के प्रतिशत को दर्शाता है।



S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-1) 28 अगस्त, 2016 (III-पती)

230. ऋण के ब्याज पर किया गया खर्च, परिवहन पर किए गए खर्च से कितना अधिक है?

- (a) 5%
- (b) 10%
- (c) 40%
- (d) 30%

उत्तर-(c)

व्याख्या—ग्राफ से—

ऋण ब्याज से भुगतान व्यय = 17.5

परिवहन पर किया गया व्यय = 12.5

\therefore ब्याज भुगतान में ट्रांसपोर्ट व्यय से अधिकता

$$= \frac{17.5 - 12.5}{12.5} \times 100 \Rightarrow 40\%$$

231. यदि ऋण पर ब्याज रु. 2.45 करोड़ है, तो प्रचार, टैक्स और रिवर्स एंड डेवलपमेंट पर कुल कितना खर्च हुआ?

- (a) 7 करोड़ रु.
- (b) 4.2 करोड़ रु.
- (c) 5.4 करोड़ रु.
- (d) 3 करोड़ रु.

उत्तर-(b)

व्याख्या—ऋण पर ब्याज = 2.45 करोड़ रु.

माना कि कुल मर्दों में व्यय x रुपया है।

$$\text{प्रश्नानुसार } \frac{17.5 \times x}{100} = 2.45$$

$$\therefore x = 14 \text{ करोड़ रु.}$$

प्रचार, टैक्स एवं रिसर्व एवं डेवलपमेंट की प्रतिशत

$$15 + 10 + 5 = 30\%$$

$$\therefore \text{इन मर्दों में व्यय} = \frac{30}{100} \times 14 \Rightarrow 4.2 \text{ करोड़ रुपये}$$

232. इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन पर कुल खर्च तथा टैक्स और ऋण के ब्याज पर कुल खर्च का अनुपात क्या है?

- (a) 5 : 4
- (b) 8 : 7
- (c) 9 : 7
- (d) 13 : 11

उत्तर-(d)

238. वर्ष 1975 से 1987 के बीच तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितनी वृद्धि हुई?

- (a) 10%
- (b) 20%
- (c) 30%
- (d) 36%

उत्तर-(d)

व्याख्या— वर्ष 1975 से 1987 में मुद्रास्फीति में वृद्धि

$$\text{वृद्धि} = \frac{\text{1987 में मुद्रास्फीति} - \text{1975 में मुद्रास्फीति}}{\text{1975 में मुद्रास्फीति}} \times 100$$

$$= \frac{36.2 - 26.6}{26.6} \times 100$$

$$= \frac{9.6}{26.6} \times 100 \Rightarrow 36\%$$

239. मुद्रास्फीति के परिवर्तन की निम्नतम दर इनमें से कहां थी?

- (a) विकसित देशों में
- (b) यू.के.
- (c) विश्व में
- (d) तीसरी दुनिया में

उत्तर-(c)

व्याख्या—ग्राफ से—

विश्व में वर्ष 1975 से 1987 में मुद्रास्फीति दर का अंतर

$$= 16 - 14.6 \\ = 1.4\%$$

विकसित देशों में मुद्रास्फीति दर अंतर = $14.2 - 11.8 \Rightarrow 2.4\%$
 तीसरी दुनिया में मुद्रास्फीति दर अंतर = $36.2 - 26.6 \Rightarrow 9.6\%$
 USA में मुद्रास्फीति दर अंतर = $12.7 - 10.3 \Rightarrow 2.4\%$
 UK में मुद्रास्फीति दर का अंतर = $23.5 - 21.7\% \Rightarrow 1.8\%$
 उपरोक्त से स्पष्ट है कि विश्व में वर्ष 1975 से 1987 में मुद्रास्फीति दर का अंतर न्यूनतम था।

240. विकसित देशों के आंकड़ों की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि—

- (a) संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था।
- (b) विकसित देशों का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था।
- (c) संयुक्त राज्य अमेरिका और विकसित देशों में मुद्रास्फीति दर एक जैसी ही रही है।
- (d) कोई निर्णय नहीं निकाला जा सकता है।

उत्तर-(c)

व्याख्या—ग्राफ से स्पष्ट है कि विकसित देशों की मुद्रास्फीति दर

$$= 14.2 - 11.8 \\ = 2.4\%$$

USA की मुद्रास्फीति दर = $10.7 - 10.3$

$$= 2.4\%$$

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विकसित देशों एवं USA की मुद्रास्फीति दर समान है।

241. वर्ष 1987 में विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितनी बढ़ोत्तरी हुई?

- (a) 135%
- (b) 126%

(c) 122%

(d) 200%

उत्तर-(b)

व्याख्या— वर्ष 1987 में विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों में


$$\text{मुद्रास्फीति दर में प्रतिशत वृद्धि} = \frac{36.2 - 16}{16} \times 100$$

$$= \frac{20.2 \times 100}{16}$$

$$= 126\% \text{ (लगभग)}$$

निर्देश—(प्रश्न 242-245): निम्नलिखित ग्राफ को ध्यान से पढँ और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

नोट— विद्यार्थियों को ध्यान देने योग्य है कि प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ग्राफ में राज्यों में कितनी बिजली नहीं है उसकी प्रतिशतता दी गई है तथा प्रश्न भी उसी प्रकार पूछे गए है।



S.S.C. ॲम्प्लाइन स्नातक स्तरीय (T-1) 27 अगस्त, 2016 (I-पारी)

242. किस राज्य में अधिकतम प्रतिशत गांव में बिजली है?

- (a) B
- (b) C
- (c) D
- (d) F

उत्तर-(b)

व्याख्या— ग्राफ को ध्यान से देखने पर स्पष्ट है कि 25% बिजली A

राज्य में नहीं है। अर्थात् 75% भाग में बिजली है।

इसी प्रकार राज्य B (55%), C (80%), D (40%), E (45%) और F (70%) भाग में बिजली है।

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि अधिकतम बिजली प्रतिशत वाला राज्य C है।

243. यदि केंद्र सरकार तेजी से बिजली लाने के लिए सहायता देना चाहे और ऐसे राज्यों को जिनमें सबसे कम बिजली पहुंची है, तो प्राथमिकता के क्रम में चौथे नंबर पर कौन-सा राज्य होगा?

- (a) F
- (b) C
- (c) E
- (d) B

उत्तर-(a)

व्याख्या-ग्राफ से स्पष्ट है जिन गांवों में सबसे कम बिजली पहुंची है। उनमें राज्य D (60%) सर्वप्रथम है। इसके बाद राज्य E (55%), B (45%), F (30%), A (25%) तथा C (20%) हैं। अतः केंद्र से सहायता प्राप्ति के सर्वाधिक योग्य राज्यों में चौथे स्थान पर F (30%) होगा।

244. कितने राज्य ऐसे हैं जिनमें कम-से-कम 60% या अधिक गांव में बिजली पहुंची है?

(a) पाँच (b) तीन (c) चार (d) दो

उत्तर-(b)

व्याख्या-ग्राफ से विद्युतीकृत राज्यों का आगे ही क्रम D (40%), E (45%), B (55%), F (70%), A (75%), C (80%) उपरोक्त से स्पष्ट है कि 60% या इससे अधिक विद्युतीकृत राज्यों की संख्या 3 है।


245. किस राज्य में D राज्य की तुलना में बिजली युक्त गांवों का प्रतिशत दोगुना है?

(a) A (b) E (c) F (d) C

उत्तर-(d)

व्याख्या-ग्राफ से D राज्य में विद्युतीकृत गांव = $100 - 60 = 40\%$
C राज्य में विद्युतीकृत गांव का प्रतिशत = $100 - 20 \Rightarrow 80\%$
 \therefore C राज्य में विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत दोगुना है।

निर्देश-(प्रश्न 246-249): ग्राफ में किसी देश के विभिन्न वर्षों में उत्पादन को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।



S.S.C. ऑफिलाइन स्नातक स्तरीय (T-1) 11 सितंबर, 2016 (I-पार्टी)

246. वर्ष 1982 और 1984 में खाद्यान्नों के उत्पादन का योग किस वर्ष के उत्पादन के बराबर है?

(a) 1980 (b) 1981
(c) 1983 (d) 1985

उत्तर-(b)

व्याख्या-वर्ष 1982 एवं 1984 में उत्पादन का योग = $20 + 15 = 35$

1981 में खाद्यान्न उत्पादन = 35

अतः विकल्प (b) अभीष्ट उत्तर होगा।

247. वर्ष 1981 और 1985 में खाद्यान्नों के उत्पादन का अंतर कितना है?

(a) 500 टन (b) 1000 टन
(c) 5000 टन (d) 10000 टन

उत्तर-(c)

व्याख्या- वर्ष 1981 एवं 1985 में खाद्यान्न उत्पादन का अंतर
 $= 35 - 30$
 $= 5000$ टन

248. वर्ष 1984 से 1985 तक उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई?

(a) 15 (b) 30
(c) 50 (d) 100

उत्तर-(d)

व्याख्या-वर्ष 1985 में 1984 की अपेक्षा खाद्यान्न उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि = $\frac{30 - 15}{15} \times 100 = 100$


249. वे कौन-से दो उत्तरोत्तर वर्ष हैं जिनमें खाद्यान्नों के उत्पादन की परिवर्तन दर सबसे कम है?

(a) 1980 और 1981 (b) 1982 और 1983
(c) 1984 और 1985 (d) 1983 और 1984

उत्तर-(a)

व्याख्या-वर्ष 1980-81 में खाद्यान्न की परिवर्तन दर = $35 - 30 \Rightarrow 5$
अतः स्पष्ट है कि वर्ष 1980 और 1981 में खाद्यान्नों के उत्पादन की परिवर्तन दर (प्रतिशत की दृष्टि से) सबसे कम रही है।

- निर्देश-**(प्रश्न 250-253): नीचे दिए गए बार ग्राफ में अलग-अलग देशों की प्रति एकड़ उपज (किग्रा. में) दर्शाई गई है। ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए।



S.S.C. ऑफिलाइन स्नातक स्तरीय (T-1) 2 सितंबर, 2016 (I-पार्टी)

250. दिए गए देशों का औसत उत्पादन है—

(a) $132 \frac{1}{3}$ (b) $133 \frac{1}{3}$
(c) $134 \frac{1}{3}$ (d) $135 \frac{1}{3}$

उत्तर-(d)

(c) 69 : 35

(d) 35 : 35

उत्तर-(a)

व्याख्या-ग्राफ से-

जापान, बेल्जियम, हांगकांग का निर्यात

$$= 12.5 + 12.1 + 10.6 \Rightarrow 35.2 \text{ बिलियन}$$

जापान, बेल्जियम तथा हांगकांग को छोड़कर शेष देशों का निर्यात

$$= 22.6 + 3.3 + 2.5 + 1.6 + 1.5 + 1.6 + 1.1$$

$$= 34.2 \text{ बिलियन}$$

$$\therefore \frac{\text{पूरे वर्ष की निर्यात की गणना}}{\text{लगभग की गणना}} = \frac{35.2}{34.2}$$

$$= \frac{35}{34} \Rightarrow 35:34 \text{ (लगभग)}$$

257. हांगकांग को किया गया निर्यात जर्मनी को किए गए निर्यात के लगभग कितना गुना है?

(a) 8

(b) 9

(c) 10

(d) 11

उत्तर-(c)

व्याख्या- ∵ हांगकांग का निर्यात = 10.6 बिलियन

तथा जर्मनी का निर्यात = 1.1 बिलियन


$$\therefore \frac{\text{निर्यात की गणना}}{\text{पूरकीय की गणना}} = \frac{10.6}{1.1} = \frac{106}{11} \Rightarrow 9.63$$

$$= 10 \text{ (लगभग)}$$

∴ हांगकांग का निर्यात = $10 \times$ जर्मनी का निर्यात

अर्थात् हांगकांग का निर्यात जर्मनी के निर्यात का 10 गुना है।

निर्देश- यहां चार खिलाड़ियों की दो पारियों के स्कोर का बहुबार-ग्राफ दिया गया है। आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न संख्या 258 से 261 का उत्तर दें।



S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015
S.S.C. संयुक्त हायर सेकंडरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

258. दूसरी पारी में सबसे कम स्कोर प्राप्त करने वाले खिलाड़ी के दोनों पारियों के औसत रन हैं-

(a) 50

(b) 40

(c) 30

(d) 60

उत्तर-(b)

व्याख्या- बार-ग्राफ से स्पष्ट है कि दूसरी पारी में सबसे कम स्कोर चेतेश्वर पुजारा प्राप्त करता है जो कि 10 रन है।

∴ चेतेश्वर पुजारा प्रथम पारी में 70 रन बनाता है।

∴ चेतेश्वर पुजारा के दोनों पारियों के रनों का औसत

$$= \frac{10 + 70}{2} \Rightarrow 40$$

259. दो पारियों में उच्चतम औसत स्कोर प्राप्त करने वाले खिलाड़ी का औसत रन है-

(a) 70

(b) 80

(c) 85

(d) 75

उत्तर-(a)

व्याख्या- महेंद्र सिंह धौनी के दोनों पारियों के रनों का औसत

$$= \frac{\text{दोनों परियों के रनों का योग}}{2}$$

$$= \frac{60 + 80}{2} \Rightarrow 70$$

अतः उच्चतम औसत स्कोर महेंद्र सिंह धौनी का है।

260. पहली पारी में चारों खिलाड़ियों द्वारा मिलकर बनाया गया कुल स्कोर-

(a) 200

(b) 210

(c) 220

(d) 190

उत्तर-(b)

व्याख्या- पहली पारी में चारों खिलाड़ियों द्वारा मिलकर बनाया गया कुल स्कोर = $60 + 50 + 70 + 30$

$$= 210$$

261. दूसरी पारी में चारों खिलाड़ियों का औसत स्कोर-

(a) 40

(b) 50

(c) 60


(d) 30

उत्तर-(a)

व्याख्या- दूसरी पारी में चारों खिलाड़ियों द्वारा कुल स्कोर = $80 + 50 + 10 + 20 = 160$

$$\therefore \text{अभीष्ट औसत} = \frac{160}{4} \Rightarrow 40$$

निर्देश- (प्रश्न 262-264) : निम्नलिखित बारंबारता बहुभूज का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। नीचे रेखा ग्राफ में एक स्कूल में वर्ष 2008 से 2013 तक के वर्षों में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है।



S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

उत्तर—(a)

व्याख्या— वर्ष 2011 से 2012 तक उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में प्रतिशत कमी $= \frac{170 - 156}{170} \times 100 \Rightarrow 8.24\%$ लगभग

- 263.** वर्ष 2008, 2009, 2012 में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का औसत लगभग क्या था?

उत्तर—(c)

व्याख्या— वर्ष 2008, 2009, 2012 में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या = $\frac{110+138+156}{3} \Rightarrow 134.67$


- 264.** 2008 से 2011 तक उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता में लगभग कितनी वृद्धि हुई है?

(c) उत्तर=(3)

व्याख्या— वर्ष 2008 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या = 110
वर्ष 2011 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या = 170

$$\therefore \text{अभीष्ट वृद्धि प्रतिशत} = \left(\frac{x-y}{y} \times 100 \right) \% \\ = \frac{170-110}{110} \times 100 \Rightarrow 54.5\%$$

- 265.** दिए गए आलेख में पुरुषों और महिलाओं के विभिन्न व्यक्तियों को दर्शाया गया है। तदनुसार, वह व्यक्तियां कौन-सा हैं जिसमें महिलाओं का अनुपार अन्य तीन व्यक्तियों की तुलना में ज्यादा है?




S.S.C. मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

व्याख्या— आरेख से स्पष्ट है कि लिपिकीय संर्वग में कार्यरत महिलाओं की संख्या अन्य व्यवसायों में कार्यरत महिलाओं की संख्या से तुलनात्मक रूप से ज्यादा है।

निर्देशा- (अन्न 266-267): बार ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए बार ग्राफ में एक देश का वर्ष 1991-1992 से वर्ष 1998-1999 तक का फॉरेंस एक्सचेंज रिजर्व (भिलियन यू.एस.डॉलर) में दिया है।




S.S.C. ऑफिसलाइन स्पार्क स्टर्डोय (T-1) 27 अगस्त, 2016 (III-पंची)

- 266.** वर्ष 1997-98 में वर्ष 1993-94 की अपेक्षा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कितने प्रतिशत अधिक बढ़ोत्तरी हुई?

(a)

$$\text{व्याख्या} - \text{अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि} = \frac{5040 - 2520}{2520} \times 100 \\ = \frac{2520}{2520} \times 100 \Rightarrow 100\%$$

निर्देश- एक कॉलेज में वर्ष 2008 और 2009 में आवेदकों की विषयवार संख्या निम्नलिखित चार्ट में दी गई है। ग्राफ का अध्ययन करें तथा प्रश्न 284 से 288 का उत्तर दें-



S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-II) परीक्षा, 2013

284. जिन विषयों के लिए मांग अधिकतम बढ़ रही हैं-

- (a) रसायन विज्ञान
- (b) गणित
- (c) कंप्यूटर
- (d) जैव प्रौद्योगिकी

उत्तर-(c)

व्याख्या— रसायन विज्ञान के लिए मांग में वृद्धि

$$= \frac{2580 - 2170}{2170} \times 100 \\ = \frac{410 \times 100}{2170} \Rightarrow 18.89\%$$

गणित के लिए मांग में वृद्धि = $\frac{2230 - 1870}{1870} \times 100$

$$= \frac{360}{1870} \times 100 \Rightarrow 19.25\%$$

कंप्यूटर के लिए मांग में वृद्धि = $\frac{435 - 325}{325} \times 100$

$$= \frac{110 \times 100}{325} \Rightarrow 33.85\%$$

जैव प्रौद्योगिकी के लिए मांग में वृद्धि = $\frac{224 - 185}{185} \times 100$

$$= \frac{39 \times 100}{185} \Rightarrow 21.08\%$$

अतः कंप्यूटर के लिए मांग अधिकतम बढ़ रही है।

285. जिन विषयों के लिए मांग न्यूनतम बढ़ रही हैं—

- (a) सांख्यिकी
- (b) प्राणि विज्ञान
- (c) वनस्पति विज्ञान
- (d) सूक्ष्मजीव विज्ञान

उत्तर-(c)

व्याख्या— सांख्यिकी की मांग वृद्धि = $\frac{482 - 435}{435} \times 100$

$$= \frac{4700}{435} \Rightarrow 10.80\%$$

प्राणि विज्ञान की मांग वृद्धि = $\frac{932 - 854}{854} \times 100$

$$= \frac{7800}{854} \Rightarrow 9.13\%$$

वनस्पति विज्ञान में मांग वृद्धि = $\frac{265 - 248}{248} \times 100$

$$= \frac{1700}{248} \Rightarrow 6.85\%$$

सूक्ष्मजीव विज्ञान में मांग वृद्धि = $\frac{406 - 365}{365} \times 100$

$$= \frac{4100}{365} \Rightarrow 11.23\%$$

अतः वनस्पति विज्ञान में मांग न्यूनतम (6.85)% बढ़ रही है।

286. रसायन विज्ञान के लिए आवेदकों की संख्या में हुई वृद्धि-

- (a) 17.26%
- (b) 18.89%
- (c) 19.25%
- (d) 21.08%

उत्तर-(b)

व्याख्या— रसायन विज्ञान के लिए आवेदकों की संख्या में हुई वृद्धि

$$= \frac{2580 - 2170}{2170} \times 100$$

$$= \frac{410 \times 100}{2170} \Rightarrow 18.89\%$$

287. भौतिकी के लिए आवेदकों की संख्या में हुई वृद्धि-

- (a) 17.26%
- (b) 18.89%
- (c) 19.25%
- (d) 21.08%

उत्तर-(a)

व्याख्या— भौतिकी के लिए आवेदकों की संख्या में हुई वृद्धि

$$= \frac{1454 - 1240}{1240} \times 100$$

$$= \frac{214}{1240} \times 100 \Rightarrow 17.26\%$$

288. गणित के लिए आवेदकों की संख्या में हुई वृद्धि-

- (a) 17.26%
- (b) 18.89%
- (c) 19.25%
- (d) 21.08%


उत्तर-(c)

व्याख्या— गणित के लिए आवेदकों की संख्या में हुई वृद्धि

$$= \frac{2230 - 1870}{1870} \times 100$$

$$= \frac{360 \times 100}{1870} \Rightarrow 19.25\%$$

निर्देश- ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्न 289 से 294 का उत्तर दीजिए-



S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-II) परीक्षा, 2014

289. कूल-सिप की बिक्री सबसे कम किस वर्ष हुई?
- 1990
 - 1992
 - 1993
 - उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर-(d)

व्याख्या— ग्राफ देखने से स्पष्ट है कि कूल-सिप की बिक्री सबसे कम 1989 में हुई है, अतः विकल्प (d) सही है।

290. किस सॉफ्ट ड्रिंक के मामले में, 1988-1993 की अवधि में औसत वार्षिक बिक्री अधिकतम थी?
- केवल पेप-अप
 - पेप-अप और ड्यू-ड्रॉप
 - केवल कूल-सिप
 - कूल-सिप और पेप-अप

उत्तर-(a)

व्याख्या— कूल-सिप की 1988-1993 में औसत बिक्री

$$= \frac{25+10+20+15+25+30}{6} = \frac{125}{6} \Rightarrow 20.8$$

पेप-अप की कुल औसत बिक्री $= \frac{30+35+30+25+20+20}{6} = \frac{160}{6} \Rightarrow 26.6$

इसी प्रकार

ड्यू-ड्रॉप की कुल औसत बिक्री $= \frac{10+15+25+15+30+25}{6} = \frac{120}{6} \Rightarrow 20$

अतः स्पष्ट है कि पेप-अप की वार्षिक औसत बिक्री अधिक है।

291. पेप-अप की 1989 में बिक्री की तुलना में 1990 में बिक्री में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट आई?

- 5
- 14
- 12
- 20

उत्तर-(b)

व्याख्या— पेप-अप की 1989 की तुलना में 1990 में गिरावट का प्रतिशत

$$= \frac{35-30}{35} \times 100 = \frac{100}{7} = 14.28 \text{ (14% लगभग)}$$

292. कूल-सिप की 1989 में बिक्री की तुलना में 1990 में बिक्री में लगभग कितने प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई?

- 100
- 50
- 171
- 150

उत्तर-(a)

व्याख्या— कूल-सिप की 1989 की तुलना में 1990 में बढ़ोत्तरी

$$= \frac{20-10}{10} \times 100 = \frac{10}{10} \times 100 \Rightarrow 100\%$$

293. ड्यू-ड्रॉप की बिक्री किस वर्ष सबसे अधिक रही?

- 1988
- 1992
- 1989
- 1993

उत्तर-(b)

व्याख्या— ड्यू-ड्रॉप की बिक्री सबसे अधिक 1992 में हुई।


294. किस सॉफ्ट ड्रिंक के मामले में 1988-1993 की अवधि में औसत वार्षिक बिक्री अधिकतम थी?

- केवल पेप-अप
- केवल कूल-सिप
- केवल ड्यू-ड्रॉप
- ड्यू-ड्रॉप और कूल-सिप

उत्तर-(c)

व्याख्या— उपरोक्त प्रश्न से केवल ड्यू-ड्रॉप की औसत वार्षिक बिक्री सबसे कम रही।

निर्देश- नीचे दिए गए प्रविभाजित दंड आरेख में 3 वर्षों के हाइस्कूल के छात्रों को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करके 295 से 299 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए।



S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

295. वर्ष 2008 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना था?

- 27%
- 32%

(c) $15\frac{3}{8}\%$

(d) $11\frac{13}{17}\%$

उत्तर—(d)

व्याख्या— वर्ष 2008 में छात्रों की कुल संख्या = 170
वर्ष 2008 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या = 20
 \therefore अभीष्ट प्रतिशत = $\frac{20}{170} \times 100 \Rightarrow 11\frac{13}{17}\%$

296. वर्ष 2008 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है?

(a) 67%

(b) 73%

(c) $79\frac{2}{3}\%$

(d) $82\frac{6}{17}\%$

उत्तर—(d)

व्याख्या— वर्ष 2008 में उत्तीर्ण छात्र = 140
वर्ष 2008 में कुल छात्र = 170
 \therefore उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत = $\frac{140 \times 100}{170} \Rightarrow 82\frac{6}{17}\%$

297. उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के अनुसार विद्यालय में हाईस्कूल का सर्वोत्तम परिणाम किस वर्ष में रहा?

(a) 2008

(b) 2009

(c) 2010

(d) उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत तीनों वर्षों में एक समान रहा।

उत्तर—(a)

व्याख्या— वर्ष 2008 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत = $82\frac{6}{17}\%$

वर्ष 2009 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत = $\frac{140 \times 100}{190} \Rightarrow 73\frac{13}{19}\%$

वर्ष 2010 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत = $\frac{160}{200} \times 100 \Rightarrow 80\%$

अतः 2008 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत अधिकतम है।

298. वर्ष 2008 में तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी थी?

(a) 50

(b) 60

(c) 70

(d) 80

उत्तर—(b)

व्याख्या— वर्ष 2008 में तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या = $140 - 80 \Rightarrow 60$ छात्र

299. वर्ष 2010 में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना था?

(a) 30%

(b) 40%

(c) 50%

(d) 60%


उत्तर—(a)

व्याख्या— वर्ष 2010 में कुल छात्र = 200

द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र = $100 - 40 \Rightarrow 60$

$$\therefore \text{अभीष्ट प्रतिशत} = \frac{60}{200} \times 100 \Rightarrow 30\%$$

निर्देश—प्रश्न 300-303 यह बार ग्राफ कक्षा X के 7 वर्गों के विद्यार्थियों द्वारा 100 अंकों की विज्ञान की परीक्षा में प्राप्त किए गए औसत अंक दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।



S.S.C. अंसलाइन CHSL (T-I) 4, 6 मार्च, 2018 (I-पार्टी)

S.S.C. संयुक्त हावर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011, 2012, 2015

S.S.C. मल्टी टॉस्टिंग परीक्षा, 2013

300. किस वर्ग ने दूसरे सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं?

(a) F

(b) B

(c) G

(d) D

उत्तर—(c)

व्याख्या— दिए गए बार ग्राफ से सभी वर्गों के औसत अंक का अवरोही क्रम इस प्रकार है-

$$C(80) > A(75) = E(75) > B(65) > D(60) > G(50) > F(45)$$

अतः दूसरे सबसे कम अंक वर्ग G का है।

301. वर्ग D और वर्ग A के द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंकों का अनुपात क्या है?

(a) 4 : 5

(b) 5 : 4

(c) 4 : 7

(d) 7 : 4

उत्तर—(a)

व्याख्या— दिए गए बार ग्राफ से स्पष्ट है वर्ग D और वर्ग A के द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंकों का अनुपात = $60 : 75 \Rightarrow 4 : 5$

302. वर्ग F के अंक वर्ग C के मुकाबले _____ कम थे।

(a) 35%

(b) 47.25%

(c) 45%

(d) 43.75%

उत्तर—(d)

व्याख्या— वर्ग F के औसत अंक = 45

तथा वर्ग C के औसत अंक = 80

$$\therefore \text{अभीष्ट \% कमी} = \left(\frac{80 - 45}{80} \times 100 \right) \%$$

$$= \left(\frac{35}{80} \times 100 \right) \%$$

$$= \left(\frac{35}{4} \right) \% \Rightarrow 43.75\%$$

303. यदि वर्ग A के सभी छात्रों में प्रत्येक ने अनुशासनहीनता के लिए 5 अंक गंवाए तो उनके नए औसत अंक कितने कम हो जाएंगे?


- (a) 5% (b) 11.11%
(c) 6.67% (d) 10%

उत्तर—(c)

व्याख्या— वर्ग A का पुराना औसत अंक = 75

$$\therefore \text{नए औसत अंक में \% कमी} = \left(\frac{5}{75} \times 100 \right) \% \\ = \frac{5}{75} \times 100 \Rightarrow 6.67\%$$

304.



खाद्यान्न का (मिलियन टन में) उत्पादन दर्शाने वाले बार ग्राफ़ का अध्ययन करें।

दी गई अवधि में अधिकतम उत्पादन और न्यूनतम उत्पादन के बीच अनुपात क्या है?

- (a) 1 : 2 (b) 2 : 3
(c) 3 : 4 (d) 5 : 2

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012


उत्तर—(d)

व्याख्या— अधिकतम उत्पादन = 100 मिलियन टन

न्यूनतम उत्पादन = 40 मिलियन टन

$$\therefore \text{अभीष्ट अनुपात} = 100 : 40 \Rightarrow 5 : 2$$

निर्देश— निम्न स्तंभ आरेख में कुछ कृति आयातों को जनरसी से मई 2008 तक की अवधि में दर्शाया गया है। इसमें दिए गए आंकड़ों के आधार पर, प्रश्नों 305-306 के (यथासंभव निकटतम) उत्तर दीजिए।



S.S.C. मल्टी टॉस्टिंग परीक्षा, 2013

305. फरवरी तथा मार्च में आयातित आलूओं का औसत मूल्य कितना है?

- (a) 3,960 (b) 5,960
(c) 1,280 (d) 4,440

उत्तर—(a)

व्याख्या— फरवरी महीने में आयातित आलू का मूल्य = 33 टन \times 120 = 3960 रुपये

मार्च महीने में आयातित आलू का मूल्य = 33 टन \times 120 = 3960 रुपये

$$\therefore \text{औसत मूल्य} = \frac{3960 + 3960}{2} \Rightarrow 3960$$

306. मार्च में गेहूं के आयात का कुल मूल्य (रुपयों में) कितना था?


- (a) 3,212 (b) 5,616
(c) 7,042 (d) 2,224

उत्तर—(b)

व्याख्या— मार्च में गेहूं का आयात = 36 टन

मार्च महीने में गेहूं के आयात का कुल मूल्य = 36 \times 156 = 5616 रुपये

निर्देश— (प्रश्न 307-311) : निम्नलिखित बार ग्राफ़ में तीन भिन्न-भिन्न कंपनियों x, y, z द्वारा कुछ वर्षों में किए गए कागज के उत्पादन (लाख टन में) आंकड़ों को दर्शाया गया है। बार-चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए।



S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2011

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014, 2015

- 313.** B_2 शाखा की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का B_4 शाखा की दोनों वर्षों की कुल बिक्री से अनुगत है—

 - 2 : 3
 - 3 : 5
 - 5 : 7
 - 7 : 9

उत्तर—(d)

व्याख्या— B_2 शाखा की दोनों वर्षों की कुल बिक्री = $65 + 75$
 $= 140$ हजार
 B_4 शाखा की दोनों वर्षों की कुल बिक्री = $85 + 95$ हजार
 $= 180$ हजार
दोनों का अनुपात = $140 : 180$
 $= 7 : 9$

- 314.** B_1, B_2 तथा B_3 शाखाओं की वर्ष 2001 में हुई औसत बिक्री B_1, B_3 तथा B_6 शाखाओं की वर्ष 2000 में हुई औसत बिक्री के कितने प्रतिशत है?

(a) 87.5 % (b) 75 % (c) 77.5 % (d) 85 %

उत्तर—(a)

व्याख्या— B_1, B_2 तथा B_3 शाखाओं की वर्ष 2001 की छिकी का औसत	$= \frac{105 + 65 + 110}{3}$ $= \frac{280}{3}$ हजार
B_1, B_3 , तथा B_6 शाखाओं की वर्ष 2000 में हुई औसत बिक्री	
	$= \frac{80 + 95 + 70}{3} = \frac{245}{3}$ हजार
अभीष्ट प्रतिशतता	$= \frac{245/3}{280/3} \times 100$ $= \frac{245 \times 100}{280}$ $= \frac{35 \times 10}{4} \Rightarrow 87.5\%$

- 315.** वर्ष 2000 में सभी शाखाओं द्वारा की गई किताबों की बिक्री का औसत कितना है?

(a) 70 (b) 80 (c) 70.5 (d) 80.5

उत्तर—(b)


व्याख्या— वर्ष 2000 में सभी शाखाओं द्वारा की गई किताबों की औसत बिक्री

$$= \frac{80 + 75 + 95 + 85 + 75 + 70}{6}$$

$$= \frac{480}{6} \Rightarrow 80 \text{ हजार}$$

निर्देश- एक महाविद्यालय में कला, विज्ञान तथा वाणिज्य में

स्तंभ-आरेख के रूप में दर्शाया गया है। इस स्तंभ-आरेख का अध्ययन करके प्रश्न 316 और 317 के उत्तर दीजिए।



S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

- 316.** कला में छात्रों की औसत संख्या और वाणिज्य में छात्रों की औसत संख्या का अनुपात कितना है?

उत्तर—(a)

$$\begin{aligned}
 \text{व्याख्या—} \\
 \text{कला में छात्रों की औसत संख्या} &= \frac{600+550+550+700}{4} \\
 &= \frac{2400}{4} \Rightarrow 600 \\
 \text{वाणिज्य में छात्रों की औसत संख्या} &= \frac{200+250+300+250}{4} \\
 &= \frac{1000}{4} \Rightarrow 250
 \end{aligned}$$


317. 2006-07 की तब्लिज़ा में 2007-08 में विज्ञान के छात्रों में कितनी

विज्ञि हर्ड?

उत्तर-(b)

$$\begin{aligned} \text{व्याख्या} - & 2006-07 \text{ में विज्ञान में छात्रों की संख्या} = 450 \\ & 2007-08 \text{ में विज्ञान में छात्रों की संख्या} = 500 \\ \therefore \text{अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि} &= \frac{500 - 450}{450} \times 100 \\ &= \frac{50}{450} \times 100 \Rightarrow 11.1\% \end{aligned}$$

निर्देश- (प्रश्न 328-330): कक्षा IX के 50 छात्रों के अंक स्थिरण के हिस्ट्रेट्राम का अध्ययन कीमिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिमिए।



S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-1) 10 सितंबर, 2016 (III-पली)

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

328. 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है?

उत्तर-(c)

व्याख्या—ग्राफ से स्पष्ट है, कि 60 से कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या = $7 + 8 + 18$
 $= 33$

329. 39 और 80 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है?

उत्तर-(a)

$$\text{व्याख्या} - 39 \text{ और } 80 \text{ के बीच अंक पाने वाले छात्रों की संख्या} \\ = 18 + 4 \Rightarrow 22$$


330. 59 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है?

उत्तर—(c)

व्याख्या—ग्राफ से 59 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का

$$\text{प्रतिशत} = \frac{4+13}{50} \times 100 \Rightarrow 34\%$$

331. दिए गए काँच में खरीफ की फसलों का औसत उत्पादन किता है?
रबी और खरीफ के मौसमों में दालों का उत्पादन
(दस लाख टनों में)




S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(a)

व्याख्या— 1988-89 में खरीफ की फसल का उत्पादन = 5×10 लाख टन
 89-90 में खरीफ की फसल का उत्पादन = 4×10 लाख टन
 90-91 में खरीफ की फसल का उत्पादन = 4×10 लाख टन
 91-92 में खरीफ की फसल का उत्पादन = 3×10 लाख टन
 92-93 में खरीफ की फसल का उत्पादन = 4×10 लाख टन
 ∴ खरीफ की फसल का औसत उत्पादन

निर्देश—स्तंभ-आरेख का अध्ययन करके प्रश्न 332-336 के उत्तर दीजिए।



S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2012
S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-II) परीक्षा, 2011

$$\begin{aligned} \therefore \text{परिवहन और करों पर व्यय के बीच अंतर} &= 12.5 - 10 \\ &= 2.5\% \\ &= 14 \times 2.5 \text{ लाख रुपये} \\ &= 35.0 \text{ लाख रुपये} \end{aligned}$$

उत्तर—(d)

$$\begin{aligned}
 \text{व्याख्या} - & \text{ बुनियादी सुविधाओं और परिवहन पर कुल व्यय} \\
 & = 20 + 12.5 \\
 & = 32.5\% \\
 \text{करों तथा ऋणों पर व्याज पर कुल व्यय} & = 17.5 + 10 \\
 & = 27.5\% \\
 \therefore \text{अभीष्ट अनुपात} & = 32.5 : 27.5 \\
 & = 65 : 55 \\
 & = 13 : 11
 \end{aligned}$$

उत्तर—(b)

व्याख्या— त्रैण पर व्याज = 17.5%

$$\therefore 17.5\% = 2.45 \text{ करोड़ रुपये}$$

$$= 245 \text{ लाख रुपये}$$

$$\therefore 1\% = \frac{245}{17.5} \Rightarrow 14 \text{ लाख रुपये}$$

∴ विज्ञापन, करों, अनुसंधान पर कुल व्यय = 15% + 10% + 5%

$$= 30\%$$

$$= 30 \times 14$$

$$= 420 \text{ लाख रुपये}$$

$$= 4.2 \text{ करोड़ रुपये}$$

उत्तर—(a)

व्याख्या— ऋणों पर ब्याज पर व्यय = 17.5%
परिवहन पर व्यय = 12.5%
∴ ऋणों पर ब्याज पर व्यय का परिवहन पर व्यय से
प्रतिशत अधिकता = $17.5\% - 12.5\%$
= 5%

निर्देश—निम्न अनुग्रहस्थ पट्टी आरेख दुर्घटनाएं दर्शाता है जिनमें दुर्घटना सम्बलित हैं, अन्य वाहनों के साथ। आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न 347-351 के उत्तर दें।

टकराए वाहन

दुपहिया	<input type="text"/>
कारें	<input type="text"/>
बर्से	<input type="text"/>
टैंकर लॉरी	<input type="text"/>
पैदल	<input type="text"/> <input type="text"/>
बाइसिकल	<input type="text"/>
खड़े वाहन	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

- 347.** जिन दुर्घटनाओं में दुष्प्रिया एवं अन्य वाहन शामिल हैं उनके बीच प्रतिशत में अंतर है, क्रमशः

उत्तर—(b)

$$\begin{aligned}
 \text{व्याख्या} - & \text{दो पहिए वाले वाहनों से दुर्घटना} = 11.5 \\
 \text{दुपहिए एवं अन्य वाहनों से दुर्घटना} &= 11.5 + 7.5 + 6 + 8 + 10 + 5 + 2 \\
 &= 50 \\
 \text{अंतर} &= 50 - 11.5 \\
 &= 38.5 \\
 \text{दुपहिया एवं दुपहिया के सापेक्ष अंतर \% में} &= \frac{38.5}{50} \times 100 \\
 &= 38.5 \times 2 \Rightarrow 77.0 \text{ (कमी)}
 \end{aligned}$$

- 348.** 60% दुर्घटनाओं के कारण हैं—

 - (a) कारें, बसें, टैंकर लॉरी और पैदल
 - (b) कारें, टैंकर लॉरी, बाइसिकल और खड़े वाहन
 - (c) दुपहिया, कारें, बसें और खड़े वाहन
 - (d) दायांगो कारें बसें और टैंकर लॉरी

उत्तर-(c)

व्याख्या— विकल्प (a) से दर्धटना का प्रतिशत

$$= \frac{7.5+6+8+2}{50} \times 100 \\ = \frac{23.5}{50} \times 100 = 47\%$$

$$\text{विकल्प (b) से दुर्घटना का प्रतिशत} = \frac{7.5+8+10+5}{50} \times 100$$

$$= \frac{30.5}{50} \times 100 = 61\%$$

$$\text{विकल्प (c) से दुर्घटना का प्रतिशत} = \frac{11.5 + 7.5 + 6 + 5}{50} \times 100$$

$$= \frac{30}{50} \times 100 = 60\%$$

$$\begin{aligned} \text{विकल्प (d) से दुर्घटना का प्रतिशत} &= \frac{11.5+7.5+6+8}{50} \times 100 \\ &= \frac{33}{50} \times 100 = 66\% \end{aligned}$$

अतः स्पष्टतः 60% दुर्घटना विकल्प (c) में दिए गए तरीके से होता है।

349. यदि पट्टी आरेख की सूचना वृत्तारेख में दिखाई जाए और वृत्तारेख के एक खंड का कोण 36° हो, तो यह खंड दर्शाएगा दुर्घटना जिसमें शामिल हो—

- | | |
|----------|---------------|
| (a) पैदल | (b) बाइसिकल |
| (c) बसें | (d) खड़े वाहन |

उत्तर—(d)

व्याख्या—माना 36° का मान प्रतिशत में x होगा।

$$\begin{aligned} \text{अतः प्रश्न से—} \quad \frac{x}{50} &= \frac{36}{360} \\ &= \frac{1}{10} \\ x &= \frac{50}{10} \\ &= 5 \end{aligned}$$

अतः $x = 5$ = खड़े वाहन

अतः उपर्युक्त खंड खड़े वाहन से दुर्घटना को प्रदर्शित करता है।

350. दुर्घटनाओं का प्रतिशत जिसमें पैदल और साइकिल सवार शामिल हैं, है—

- | | |
|--------|----------|
| (a) 24 | (b) 6 |
| (c) 60 | (d) 20.4 |

उत्तर—(a)

व्याख्या—दुर्घटनाओं का प्रतिशत जिसमें पैदल और साइकिल सवार शामिल हैं

$$\begin{aligned} &= \frac{(10+2)}{(11.5+7.5+6+8+2+10+5)} \times 100 \\ &= \frac{12}{50} \times 100 \\ &= 24 \end{aligned}$$

351. जिन दुर्घटनाओं में बसें शामिल हैं उनका प्रतिशत उन दुर्घटनाओं से कितना कम है जिनमें टैंकर लॉरी शामिल हैं?

- | | |
|--------|--------|
| (a) 6 | (b) 4 |
| (c) 40 | (d) 28 |

उत्तर—(b)

व्याख्या—सभी दुर्घटनाओं की संख्या

$$= 11.5 + 7.5 + 6 + 8 + 2 + 10 + 5 \\ = 50$$

$$\text{बस द्वारा दुर्घटना का प्रतिशत} = \frac{6}{50} \times 100 = 12\%$$

$$\text{टैंकर लॉरी द्वारा दुर्घटना का प्रतिशत} = \frac{8}{50} \times 100 = 16\%$$

जिन दुर्घटनाओं में बसें शामिल हैं उनका प्रतिशत उन दुर्घटनाओं से निम्न % कम है जिनमें टैंकर लॉरी शामिल हैं = $16 - 12 = 4\%$

प्रकार-4

तालिका आधारित

निर्देश : (प्रश्न 352-355): नीचे दी गई तालिका में 5 छात्रों द्वारा 4 अलग-अलग विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। प्रत्येक छात्र को सभी विषयों में 100 में से अंक दिए गए हैं।

छात्र	अंग्रेजी	गणित	विज्ञान	हिंदी
1	87	96	90	81
2	74	99	94	89
3	89	99	99	92
4	62	89	96	91
5	95	92	92	86

S.S.C. ऑफिसियल स्नातक स्तरीय (T-I) 5 अगस्त, 2017 (3-पार्टी)

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-II) परीक्षा, 2011

S.S.C. संयुक्त हायर सेकेण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012, 2015

352. किस विषय में सभी छात्रों के कुल अंक अधिकतम है?

- | | |
|--------------|-----------|
| (a) अंग्रेजी | (b) गणित |
| (c) विज्ञान | (d) हिंदी |

उत्तर—(b)

व्याख्या— अंग्रेजी विषय में सभी छात्रों को प्राप्त कुल अंक $= 87 + 74 + 89 + 62 + 95 = 407$

गणित विषय में सभी छात्रों को प्राप्त कुल अंक $= 96 + 99 + 99 + 89 + 92 = 475$

विज्ञान विषय में सभी छात्रों को प्राप्त कुल अंक $= 90 + 94 + 99 + 96 + 92 = 471$

हिंदी विषय में सभी छात्रों को प्राप्त कुल अंक $= 81 + 89 + 92 + 91 + 86 = 439$

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि गणित विषय में सभी छात्रों के कुल अंक अधिकतम हैं।

353. किस छात्र ने सभी 4 विषयों को मिलाकर सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं?

- | | |
|-------------|-------------|
| (a) छात्र 1 | (b) छात्र 2 |
| (c) छात्र 3 | (d) छात्र 5 |

उत्तर—(c)

व्याख्या— छात्र 1 के सभी 4 विषयों को मिलाकर कुल अंक $= 87 + 96 + 90 + 81 = 354$

छात्र 2 के सभी 4 विषयों को मिलाकर कुल अंक $= 74 + 99 + 94 + 89 = 356$

छात्र 3 के सभी 4 विषयों को मिलाकर कुल अंक $= 89 + 99 + 99 + 92 = 379$

छात्र 4 के सभी 4 विषयों को मिलाकर कुल अंक $= 62 + 89 + 96 + 91 = 338$

व्याख्या— 4 वर्षों में देश C का औसत उत्पादन

$$= \frac{2035+1821+1937+3014}{4}$$

$$= \frac{8807}{4} \Rightarrow 2201.75 \text{ (विंटल)}$$

4 वर्षों में देश C की औसत बिक्री

$$= \frac{2247+2018+2563+2988}{4}$$

$$= \frac{9816}{4} \Rightarrow 2454 \text{ (विंटल)}$$

. अभीष्ट अंतर = $2201.75 - 2454 \Rightarrow -252.25$ (विंटल)

363. देश B तथा देश D के 4 वर्ष की अवधि के कुल अधिशेष के बारे में क्या कहा जा सकता है?

- (a) B का अधिशेष = D का अधिशेष
- (b) D का अधिशेष > B का अधिशेष
- (c) B का अधिशेष > D का अधिशेष
- (d) कोई संबंध नहीं है

उत्तर—(b)

व्याख्या— देश B के 4 वर्ष की अवधि का कुल अधिशेष

$$=(1881+2067+1328+1578)-(1798+2389+2063+1239)$$

$$=(6854)-(7489)=-635$$

इसी प्रकार से, देश D के 4 वर्षों का कुल अधिशेष

$$=(3126+2987+2143+4126)-(2417+2911+3188+3563)$$

$$=(12382)-(12079)=303$$

अतः स्पष्ट है कि D का अधिशेष, B के अधिशेष से अधिक है।
अतः विकल्प (b) सही है।

निर्देश: (प्रश्न 364-367): नीचे दी गई तालिका में 5 दुकानों पर 4 विभिन्न वस्तुओं के विक्रय मूल्य (रु./किंग्रा. में) को दर्शाता गया है।

	विक्रय मूल्य (रु./किंग्रा. में)				
वस्तु	दुकान 1	दुकान 2	दुकान 3	दुकान 4	दुकान 5
A	10	12	14	11	13
B	21	20	22	21	21
C	18	12	14	15	17
D	20	20	19	19	20

S.S.C. ऑनलाइन मल्टी टॉरिंकंग परीक्षा, 19 सितंबर, 2017 (I-पार्टी)

364. यदि कोई ग्राहक दुकान 2 से प्रत्येक वस्तु की 2 किंग्रा. मात्रा खरीदता है, तो कुल विक्रय मूल्य (रु. में) क्या है?

- (a) 128 (b) 164 (c) 140 (d) 132

उत्तर—(a)

व्याख्या— दुकान 2 से प्रत्येक वस्तु की 2 किंग्रा. मात्रा खरीदने पर कुल विक्रय मूल्य = $(12 + 20 + 12 + 20) \times 2$
 $= 64 \times 2 \Rightarrow 128 \text{ रु.}$

365. यदि एक ग्राहक वस्तु A की 3 किंग्रा. मात्रा प्रत्येक दुकान से खरीदता है, तो कुल विक्रय मूल्य (रु. में) क्या है?

- (a) 140 (b) 120 (c) 180 (d) 160

उत्तर—(c)

व्याख्या— वस्तु A की 3 किंग्रा. मात्रा प्रत्येक दुकान से खरीदने पर कुल विक्रय मूल्य
 $= [10 \times 3 + 12 \times 3 + 14 \times 3 + 11 \times 3 + 13 \times 3]$
 $= (30 + 36 + 42 + 33 + 39)$
 $= 180 \text{ रु.}$

366. वस्तु C का औसत विक्रय मूल्य (रु./किंग्रा. में) क्या है?

- (a) 16.8 (b) 15.2 (c) 14.6 (d) 13.8

उत्तर—(b)

व्याख्या— वस्तु C का औसत विक्रय मूल्य (रु./किंग्रा)
 $= \frac{(18+12+14+15+17)}{5}$
 $= \frac{76}{5} \Rightarrow 15.2 \text{ रु./किंग्रा}$

367. यदि प्रत्येक वस्तु का एक किंग्रा. प्रत्येक दुकान से खरीदा जाए, तो कौन-सी दुकान का कुल विक्रय मूल्य सबसे कम होगा?

- (a) दुकान 1 (b) दुकान 4
- (c) दुकान 2 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर—(c)

व्याख्या— दुकान 1 का कुल विक्रय मूल्य = $10 + 21 + 18 + 20$
 $= 69 \text{ रु.}$

दुकान 2 का कुल विक्रय मूल्य = $12 + 20 + 12 + 20 = 64 \text{ रु.}$

दुकान 3 का कुल विक्रय मूल्य = $14 + 22 + 14 + 19 = 69 \text{ रु.}$

दुकान 4 का कुल विक्रय मूल्य = $11 + 21 + 15 + 19 = 66 \text{ रु.}$

दुकान 5 का कुल विक्रय मूल्य = $13 + 21 + 17 + 20 = 71 \text{ रु.}$

अतः स्पष्ट है कि दुकान 2 का कुल विक्रय मूल्य सबसे कम है।

निर्देश : (प्रश्न 368-371): नीचे दी गई तालिका में एक महाविद्यालय में दिए गए 5 वर्षों में कला, विज्ञान, वाणिज्य तथा व्यवसाय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है।

Year	Arts	Science	Commerce	Business
वर्ष	कला	विज्ञान	वाणिज्य	व्यवसाय
2012	48	105	148	32
2013	56	123	136	30
2014	64	125	144	36
2015	78	148	156	36
2016	92	161	168	48

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 5 अगस्त, 2017 (I-पार्टी)

368. 2012 से 2016 तक वाणिज्य के छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?

- (a) 11.16 (b) 17.28 (c) 13.51 (d) 15.67

उत्तर—(c)

व्याख्या— दी गई तालिका से
वर्ष 2012 में वाणिज्य के छात्रों की संख्या = 148
वर्ष 2016 में वाणिज्य के छात्रों की संख्या = 168
∴ वृद्धि = $168 - 148 \Rightarrow 20$
∴ अभीष्ट % वृद्धि = $\frac{20}{148} \times 100 \Rightarrow 13.51\%$

369. 2012 से 2016 तक व्यवसाय के छात्रों की संख्या की वार्षिक सामान्य वृद्धि दर (% में) कितनी है?

- (a) 10 (b) 12.5 (c) 15 (d) 17.5

उत्तर—(b)

व्याख्या— दी गई तालिका से,
वर्ष 2012 में व्यवसाय के छात्रों की संख्या = 32
वर्ष 2016 में व्यवसाय के छात्रों की संख्या = 48
∴ वृद्धि = $48 - 32 \Rightarrow 16$
∴ % वृद्धि = $\frac{16}{32} \times 100 \Rightarrow 50\%$
∴ वार्षिक सामान्य वृद्धि = $\frac{50}{4} \Rightarrow 12.5\%$

(मौजूदा 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 तथा 2015-2016 है इसलिए वार्षिक सामान्य वृद्धि के लिए 4 से भाग दिया गया)

370. कला पढ़ने वाले छात्रों की संख्या की वार्षिक औसत तथा विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या की वार्षिक औसत का अनुपात क्या है?

- (a) 169 : 331 (b) 66 : 169
(c) 127 : 261 (d) 32 : 75

उत्तर—(a)

व्याख्या— दी गई तालिका से,
कला पढ़ने छात्रों की संख्या का वार्षिक औसत
= $\frac{48 + 56 + 64 + 78 + 92}{5} \Rightarrow \frac{338}{5}$
विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का वार्षिक औसत
= $\frac{105 + 123 + 125 + 148 + 161}{5} = \frac{662}{5}$
∴ अभीष्ट अनुपात = $\frac{338}{5} : \frac{662}{5}$
= $338 : 662 \Rightarrow 169 : 331$

371. इन 4 विषयों के कुल छात्रों की संख्या में किस वर्ष में गत वर्ष से सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है?

- (a) 2013 (b) 2014 (c) 2015 (d) 2016

उत्तर—(c)

व्याख्या— वर्ष 2012 में 4 विषयों के कुल छात्रों की संख्या
= $48 + 105 + 148 + 32 \Rightarrow 333$
वर्ष 2013 में 4 विषयों के कुल छात्रों की संख्या
= $56 + 123 + 136 + 30 \Rightarrow 345$
वर्ष 2014 में 4 विषयों के कुल छात्रों की संख्या
= $64 + 125 + 144 + 36 \Rightarrow 369$
वर्ष 2015 में 4 विषयों के कुल छात्रों की संख्या

= $78 + 148 + 156 + 36 \Rightarrow 418$
वर्ष 2016 में 4 विषयों के कुल छात्रों की संख्या
= $92 + 161 + 168 + 48 \Rightarrow 469$
वर्ष 2013 में 4 विषयों के कुल छात्रों में प्रतिशत वृद्धि
= $\frac{345 - 333}{333} \times 100 = \frac{12}{333} \times 100 \Rightarrow 3.60\%$

वर्ष 2014 में 4 विषयों के कुल छात्रों में प्रतिशत वृद्धि
= $\frac{369 - 345}{345} \times 100 = \frac{24}{345} \times 100 \Rightarrow 6.95\%$
वर्ष 2015 में 4 विषयों के कुल छात्रों में प्रतिशत वृद्धि
= $\frac{418 - 369}{369} \times 100 = \frac{49}{369} \times 100 \Rightarrow 13.28\%$

वर्ष 2016 में 4 विषयों के कुल छात्रों में प्रतिशत वृद्धि
= $\frac{469 - 418}{418} \times 100 = \frac{51}{418} \times 100 \Rightarrow 12.20\%$

अतः स्पष्ट है कि वर्ष 2015 में 4 विषयों के कुल छात्रों में सबसे अधिक 13.28% वृद्धि हुई।

निर्देश- निम्न सारणी का अध्ययन करके प्रश्न 372-373 के उत्तर दीजिए।

वर्ष	दिए गए संकाय के अंतर्गत योग्य घोषित उम्मीदवार					योग्य उम्मीदवारों की कुल संख्या
	कला	विज्ञान	वाणिज्य	कृषि	इंजीनियरिंग	
2006	24	40	19	09	08	780
2007	15	42	18	13	12	650
2008	20	45	20	08	07	500
2009	15	45	16	14	10	620
2010	19	35	15	19	12	900
2011	18	42	14	12	14	850

S.S.C. संयुक्त हायर सेकेण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

372. 2010 से 2011 तक कला संकाय में योग्य घोषित उम्मीदवारों में कितनी कमी आई है?

- (a) 11 (b) 18
(c) 42 (d) 69

उत्तर—(b)

व्याख्या— 2010 में कला संकाय में योग्य घोषित उम्मीदवारों की संख्या
= $900 \times \frac{19}{100} \Rightarrow 171$
2011 में कला संकाय में योग्य घोषित उम्मीदवारों की संख्या
= $850 \times \frac{18}{100} \Rightarrow 153$
∴ घोषित उम्मीदवारों की संख्या में कमी = $171 - 153 = 18$

373. 2006 से 2008 तक प्रतिवर्ष विज्ञान संकाय में योग्य घोषित उम्मीदवारों की औसत संख्या तथा उसी संकाय में 2009 से 2011 तक योग्य घोषित उम्मीदवारों का अंतर कितना था?
- (a) 47 (b) 57 (c) 74 (d) 141

उत्तर-(a)

व्याख्या— 2006 में विज्ञान संकाय में योग्य घोषित उम्मीदवारों की संख्या	
$= \frac{780 \times 40}{100} \Rightarrow 312$	
2007 में विज्ञान संकाय में उम्मीदवारों की संख्या = $\frac{650 \times 42}{100} \Rightarrow 273$	
2008 में विज्ञान संकाय में उम्मीदवारों की संख्या = $500 \times \frac{45}{100} \Rightarrow 225$	
$\therefore \text{तीनों वर्ष की औसत संख्या} = \frac{312 + 273 + 225}{3} \Rightarrow 270$	
तथा 2009 में विज्ञान संकाय में उम्मीदवारों की संख्या	
$= \frac{620 \times 45}{100} \Rightarrow 279$	
2010 में विज्ञान संकाय में उम्मीदवारों की संख्या = $\frac{900 \times 35}{100} \Rightarrow 315$	
2011 में विज्ञान संकाय में उम्मीदवारों की संख्या = $850 \times \frac{42}{100} \Rightarrow 357$	
$\therefore 2009 \text{ से } 2011 \text{ तक योग्य उम्मीदवारों का औसत}$	
$= \frac{279 + 315 + 357}{3} \Rightarrow 317$	
$\therefore \text{औसत में अभीष्ट अंतर} = 317 - 270 \Rightarrow 47$	

निर्देश— (प्रश्न 374-377): किसी कंपनी द्वारा विगत वर्षों में निर्मित 5 प्रकार की साइकिलों की संख्या निम्नलिखित है।

वर्ष	साइकिलों के प्रकार (1000 में)				
	A	B	C	D	E
1997	200	150	78	90	65
1998	150	180	100	105	70
1999	180	175	92	110	85
2000	195	160	120	125	75
2001	220	185	130	135	80

S.C. ऑफलाइन स्नातक स्तरीय (T-1) 3 शिरकत, 2016 (II-पार्टी)

374. वर्ष 1998-2000 के बीच D प्रकार की साइकिलों के उत्पादन में वृद्धि का अनुमानित प्रतिशत बताइए।

- (a) 10 (b) 19 (c) 15 (d) 17

उत्तर-(b)

व्याख्या— वर्ष 1998 से 2000 में D प्रकार के साइकिलों में वृद्धि	
$\text{प्रतिशत} = \frac{125 - 105}{105} \times 100 \Rightarrow 19\% \text{ (लगभग)}$	

375. किस प्रकार की साइकिलों का दिए गए विगत 5 वर्षों में कुल उत्पादन अधिकतम था?

- (a) A (b) B (c) C (d) D

उत्तर-(a)

व्याख्या— A प्रकार के साइकिलों की संख्या

$$= 200 + 150 + 180 + 195 + 220 \Rightarrow 945$$

B प्रकार के साइकिलों की संख्या

$$= 150 + 180 + 175 + 160 + 185 \Rightarrow 850$$

C प्रकार के साइकिलों की संख्या

$$= 78 + 100 + 92 + 120 + 130 \Rightarrow 520$$

D प्रकार के साइकिलों की संख्या

$$= 90 + 105 + 110 + 125 + 135 \Rightarrow 565$$

E प्रकार के साइकिलों की संख्या = $65 + 70 + 85 + 75 + 80$

$$= 375$$

स्पष्ट है कि विगत 5 वर्षों में A प्रकार की साइकिलों का उत्पादन अधिकतम था।

376. वर्ष 1997 से 1999 के बीच A प्रकार के साइकिलों के उत्पादन में कितने प्रतिशत कमी हुई?

- (a) 10 (b) 25
(c) 20 (d) 15

उत्तर-(a)

व्याख्या— वर्ष 1997 से 1999 में A प्रकार के साइकिलों के उत्पादन

$$\text{में प्रतिशत कमी} = \frac{200 - 180}{200} \times 100 \Rightarrow 10\%$$

377. E प्रकार की साइकिलों का वर्ष 2001 का उत्पादन, B प्रकार की साइकिलों के वर्ष 2000 के उत्पादन का कितने प्रतिशत था?

- (a) 40 (b) 50 (c) 45 (d) 25

उत्तर-(b)

व्याख्या— वर्ष 2001 में E प्रकार के साइकिलों का उत्पादन, वर्ष

$$2000 \text{ में B प्रकार के साइकिलों से प्रतिशत} = \frac{80}{160} \times 100 \Rightarrow 50\%$$

निर्देश- सारणी को पढ़िए और प्रश्न 378 से 381 के उत्तर दीजिए।

किसी बस्ती की 1988 से 1992 तक रही जनसंख्या

वर्ष	पुरुष	महिलाएं	बच्चे	कुल योग	पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी (+) या कमी (-)
1988	65104	60387	—	146947	—
1989	70391	62516	—	—	+(11630)
1990	—	63143	20314	153922	—
1991	69395	—	21560	—	-(5337)
1992	71274	65935	23789	160998	—

S.C. संयुक्त हायर सेकेंडरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

378. 1988 में बच्चों की संख्या है-

- (a) 31236 (b) 125491
(c) 14546 (d) 21456

उत्तर-(d)

व्याख्या— 1988 में बच्चों की संख्या = $146947 - (65104 + 60387)$

$$= 146947 - 125491$$

$$= 21456$$

379. 1989 में कुल जनसंख्या है-

- | | |
|------------|------------|
| (a) 144537 | (b) 158577 |
| (c) 146947 | (d) 149637 |

उत्तर-(b)

व्याख्या— 1989 में कुल जनसंख्या = $146947 + 11630 = 158577$

380. 1989 में बच्चों की संख्या है-

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) 25670 | (b) 14040 |
| (c) 13970 | (d) 15702 |

उत्तर-(a)

व्याख्या— ∵ 1989 में कुल जनसंख्या = $146947 + 11630 = 158577$
 \therefore 1989 में बच्चों की संख्या = $158577 - (70391 + 62516) = 158577 - 132907 = 25670$

381. 1991 में महिलाओं की संख्या है-

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) 57630 | (b) 56740 |
| (c) 52297 | (d) 62957 |

उत्तर-(a)

व्याख्या— 1990 की जनसंख्या = 153922
 \therefore 1991 की जनसंख्या = $153922 - 5337 = 148585$
 \therefore 1991 में महिलाओं की संख्या = $148585 - (69395 + 21560) = 148585 - 90955 = 57630$

निर्देश- निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न 382 से 384 का उत्तर दीजिए।

स्कूल	50% से कम अंक पाने वाले छात्रों की सं.	50% से अधिक अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत	शासिल हुए कुल छात्रों की सं.
A	240	55	600
B	220	40	400
C	300	20	375
D	280	10	350
E	210	25	300

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

382. 50% से कम अंक पाने वाले छात्रों और पूरे 50% अंक पाने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या है?

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| (a) 50 : 3 | (b) 25 : 2 | (c) 25 : 4 | (d) 35 : 2 |
|------------|------------|------------|------------|

उत्तर-(b)

व्याख्या— स्कूल A में 50% से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या = $\frac{600 \times 55}{100} \Rightarrow 330$

\therefore पूरे 50% अंक पाने वाले छात्रों की संख्या = $600 - (330 + 240) = 30$ छात्र

स्कूल B में 50% से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या

$$= 400 \times \frac{40}{100} \Rightarrow 160$$

$$\therefore \text{पूरे } 50\% \text{ अंक पाने वाले छात्रों की संख्या} = 400 - (160 + 220) \\ = 400 - 380 \\ = 20$$

स्कूल C में 50% से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या

$$= \frac{375 \times 20}{100} \Rightarrow 75$$

$$\therefore \text{पूरे } 50\% \text{ अंक पाने वाले छात्रों की संख्या} \\ = 375 - (300 + 75) \\ = 0$$

स्कूल D में 50% से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या

$$= \frac{350 \times 10}{100} \Rightarrow 35$$

$$\therefore \text{पूरे } 50\% \text{ अंक पाने वाले छात्रों की संख्या} \\ = 350 - (280 + 35) \\ = 35$$

स्कूल E में 50% से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या

$$= \frac{300 \times 25}{100} \Rightarrow 75$$

$$\therefore \text{पूरे } 50\% \text{ अंक पाने वाले छात्रों की संख्या} \\ = 300 - (75 + 210) \\ = 15$$

अभीष्ट अनुपात
 $= 240 + 220 + 300 + 280 + 210 : 30 + 20 + 0 + 35 + 15$
 $= 1250 : 100$
 $= 125 : 10$
 $= 25 : 2$

383. किस स्कूल में पूरे 50% अंक पाने वाले छात्रों की संख्या सबसे अधिक है?

- | | |
|-------|-------|
| (a) D | (b) E |
| (c) B | (d) A |

उत्तर-(a)

व्याख्या— उपरोक्त प्रश्न को देखने से स्पष्ट है कि पूरे 50% अंक पाने वाले छात्रों की सबसे अधिक संख्या स्कूल D में है।

384. 50% या अधिक अंक पाने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है?

- | | |
|----------|---------|
| (a) 1250 | (b) 875 |
| (c) 775 | (d) 675 |

उत्तर-(c)

व्याख्या— उपरोक्त हल से 50% से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की कुल संख्या = $330 + 160 + 75 + 35 + 75 = 675$

पूरे 50% अंक पाने वाले छात्रों की संख्या

$$= 30 + 20 + 0 + 35 + 15 = 100$$

$$\therefore 50\% \text{ या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या} \\ = 675 + 100 \\ = 775$$

निर्देश- निम्न सारणी का अध्ययन कीजिए और प्रश्न (385-388) के उत्तर दीजिए।

कर्मचारी आय का बोनस (रु. में)	K	L	M	N	O
वेतन	12,000	6,000	21,000	9,000	12,000
बोनस	2,400	1,200	4,500	2,400	3,000
ओवरटाइम	5,400	2,100	6,000	5,100	6,000
बकाया	6,000	5,400	12,000	4,200	7,500
विविध	1,200	300	1,500	300	1,500
कुल	27,000	15,000	45,000	21,000	30,000

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

385. वह कर्मचारी कौन है जिसका बकाया से आय का वेतन से आय के साथ अनुपात न्यूनतम है?

- (a) K (b) L
(c) M (d) N

उत्तर-(d)

व्याख्या— सारणी के अनुसार कर्मचारी N के बकाया का अनुपात वेतन से प्राप्त आय के अनुपात का न्यूनतम होगा।

386. वह कर्मचारी जो अपनी कुल आय की तुलना में अधिकतम बोनस कमाता है—

- (a) M (b) N
(c) L (d) K

उत्तर-(b)

व्याख्या— कर्मचारी M के बोनस एवं कुल आय का अनुपात = $\frac{4500}{45000}$
 $= \frac{1}{10} = 0.1$

कर्मचारी N के बोनस एवं कुल आय का अनुपात = $\frac{2400}{21000}$
 $= \frac{24}{210} = \frac{4}{23}$
 $= 0.12$

कर्मचारी L के बोनस एवं उसकी आय का अनुपात = $\frac{1200}{15000}$
 $= \frac{2}{25} \Rightarrow 0.08$

कर्मचारी K के बोनस एवं उसकी आय का अनुपात = $\frac{2400}{27000}$
 $= \frac{8}{90} \Rightarrow \frac{4}{45}$
 $= 0.08$

अतः अपनी आय की तुलना में अधिकतम बोनस कर्मचारी N ने प्राप्त किया।

387. वह कर्मचारी जिसकी कुल आय में उसके वेतन का प्रतिशत अधिकतम है—

- (a) K (b) L
(c) M (d) O

उत्तर-(c)

व्याख्या—

K की कुल आय में उसके वेतन का प्रतिशत = $\frac{1200}{27000} \times 100$
 $= 44.4\%$

L की कुल आय में उसके वेतन का प्रतिशत = $\frac{6000}{15000} \times 100$
 $= 40\%$

M की कुल आय में उसके वेतन का प्रतिशत = $\frac{21000}{45000} \times 100$
 $= 46.6\%$

O की कुल आय में उसके वेतन का प्रतिशत = $\frac{12000}{30000} \times 100$
 $= 40\%$

अतः स्पष्ट है कि M की कुल आय में उसके वेतन का प्रतिशत अधिकतम है।

388. कोटि O में कर्मचारियों के मामले में ओवरटाइम से आय बकाया से आय का कितने प्रतिशत है?

- (a) 80 (b) 75
(c) 25 (d) 20

उत्तर-(a)

व्याख्या— O के मामले में कर्मचारियों के ओवरटाइम से आय, बकाया से आय का निम्न प्रतिशत होगा = $\frac{6000}{7500} \times 100$
 $= \frac{400}{5} \Rightarrow 80\%$

निर्देश- निम्न सारणी का अध्ययन कीजिए, जिसमें 6 परीक्षार्थियों (A, B, C, D, E तथा F) के एक शैक्षिक वर्ष की छ: परीक्षाओं में प्राप्तान्कों को दर्शाया गया है। तदनुसार प्रश्न 389-392 के उत्तर दीजिए।

परीक्षा-परीक्षार्थी	परीक्षा-1	परीक्षा-2	परीक्षा-3	परीक्षा-4	परीक्षा-5	परीक्षा-6	योग
A	60	64	62	66	63	68	383
B	70	62	68	60	58	68	386
C	66	68	70	72	70	74	420
D	59	60	62	63	65	67	376
E	56	58	60	68	62	64	368
F	62	66	68	58	59	65	378

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

389. परीक्षार्थी B तथा F को मिलकर प्राप्त किए अंक उनकी किस परीक्षा में न्यूनतम थे?

- | | |
|-------|-------|
| (a) 2 | (b) 3 |
| (c) 4 | (d) 5 |

उत्तर—(d)

व्याख्या—परीक्षार्थी B तथा F द्वारा मिलकर

परीक्षा I में प्राप्त अंक = $70 + 62 = 132$

परीक्षा II में प्राप्त अंक = $62 + 66 = 128$

परीक्षा III में प्राप्त अंक = $68 + 68 = 136$

परीक्षा IV में प्राप्त अंक = $60 + 58 = 118$

परीक्षा V में प्राप्त अंक = $58 + 59 = 117$

परीक्षा VI में प्राप्त अंक = $68 + 65 = 133$

अतः B एवं F द्वारा मिलकर परीक्षा-5 में प्राप्त अंक न्यूनतम थे।

390. वह कौन-सा परीक्षार्थी है, जिसने पूरे शैक्षिक वर्ष में क्रमिक सुधार प्रदर्शित किया है?

- | | |
|-------|-------|
| (a) A | (b) B |
| (c) C | (d) D |

उत्तर—(d)

व्याख्या—परीक्षार्थी D ने पूरे शैक्षिक वर्ष में क्रमिक रूप से सुधार प्रदर्शित किया है।

391. वह कौन-सा परीक्षार्थी है, जिसमें परीक्षा I की तुलना में परीक्षा VI में, अधिकतम सुधार का प्रतिशत दर्शाया है?

- | | |
|-------|-------|
| (a) A | (b) E |
| (c) B | (d) C |

उत्तर—(b)

व्याख्या—परीक्षा I की तुलना में परीक्षा VI में सुधार का प्रतिशत क्रमशः निम्न हैं—

$$\text{परीक्षार्थी A में सुधार} = \frac{68 - 60}{60} \times 100 = \frac{8}{60} \times 100 \\ = \frac{40}{3} = 13.3\% \text{ की वृद्धि}$$

$$\text{परीक्षार्थी B में सुधार} = \frac{70 - 68}{70} \times 100 \\ = 2.85\% \text{ की हानि}$$

$$\text{परीक्षार्थी C में सुधार} = \frac{74 - 66}{66} \times 100 \\ = \frac{8}{66} \times 100 \\ = \frac{400}{33} = 12.1\% \text{ की वृद्धि}$$

$$\text{परीक्षार्थी D में सुधार} = \frac{67 - 59}{59} \times 100 \\ = \frac{800}{59} = 13.6\% \text{ की वृद्धि}$$

$$\text{परीक्षार्थी E में सुधार} = \frac{64 - 56}{56} \times 100$$

$$= \frac{8}{56} \times 100 = 14.3\% \text{ की वृद्धि}$$

$$\text{परीक्षार्थी F में सुधार} = \frac{65 - 62}{62} \times 100$$

$$= \frac{300}{62} = 4.8\%$$

अतः स्पष्ट है कि परीक्षार्थी E ने अधिकतम सुधार का प्रतिशत दर्शाया है।

392. वह परीक्षा कौन-सी है, जिसमें सभी परीक्षार्थियों ने अपनी पिछली परीक्षा की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया है?

- | | |
|---------------|---------------|
| (a) परीक्षा-6 | (b) परीक्षा-5 |
| (c) परीक्षा-4 | (d) परीक्षा-2 |

उत्तर—(a)

व्याख्या—परीक्षा-6 में सभी परीक्षार्थियों ने परीक्षा-5 की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया है।

निर्देश- निम्न सारणी का अध्ययन करके प्रश्न 393 और 394 के उत्तर दीजिए।

ऊंचाई (सेमी. में)	लड़कियों की संख्या
140 से कम	4
145 से कम	11
150 से कम	29
155 से कम	40
160 से कम	46
165 से कम	51

S.C. संयुक्त हायर सेकंडरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

393. उन लड़कियों की संख्या कितनी है, जिनकी ऊंचाई 150 सेमी. से अधिक है?

- | | |
|--------|--------|
| (a) 22 | (b) 29 |
| (c) 86 | (d) 97 |

उत्तर—(a)

व्याख्या—150 से अधिक तथा 155 से कम ऊंचाई की लड़कियों की संख्या

$$= 40 - 29 \Rightarrow 11$$

155 से अधिक तथा 160 से कम ऊंचाई की लड़कियों की संख्या

$$= 46 - 40 \Rightarrow 6$$

160 से अधिक तथा 165 से कम ऊंचाई की लड़कियों की संख्या

$$= 51 - 46 \Rightarrow 5$$

अतः 150 सेमी. से अधिक ऊंचाई की लड़कियों की संख्या

$$= 11 + 6 + 5 \Rightarrow 22$$

394. उन लड़कियों की औसत ऊंचाई लगभग कितने सेमी. है जिनकी ऊंचाई 155 सेमी. तथा उससे अधिक है?

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) 158.7 | (b) 159.8 |
| (c) 160.4 | (d) 162.6 |

उत्तर—(d)

